



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2005/पौष 22, 1926

No. 15]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2005/PAUSA 22, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 17(अ)/आ.व./चीनी.— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के उप धारा (3-ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इस आदेश को चीनी (2004-2005 में उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 2005 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं : आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "भारतीय चीनी मानक(भा0ची0मा0)" श्रेणियों से निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा जारी की गई बोतलों में चीनी के मानक मोहरबंद नमूनों द्वारा निरूपित श्रेणियां अभिप्रेत हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एल-29, एम-29, एस-29, एल-30, एम-30, एस-30, एल-31, एम-31, एस-31 और एस.एस-31 मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) "अनुसूची" का इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. 2004-2005 मौसम में उत्पादित चीनी की कीमत: (1) स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट जोनों के प्रति अनुसूची-1 अथवा अनुसूची-2, जैसी भी स्थिति हो,

के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट मूल्य सभी भारतीय चीनी मानक (भा0ची0मा0) श्रेणियों की उस चीनी के लिए देय मूल्य होंगे, जो 'ए' टिबल नए टाट के बोरो में पैक हैं और अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट सभी निर्यात कड़ाह चीनी कारखानों द्वारा 2004-2005 में उत्पादित की गई है, जिसे लेवी चीनी प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1979 के खण्ड-2 के उपखण्ड-1 के अधीन किसी व्यक्ति, संगठन या राज्य सरकार को क्रेता के विकल्प पर (i) रेल वैगनों में या (ii) क्रेता की गाड़ियों/लारियों या परिवहन के अन्य साधनों कारखानों के द्वार पर या कारखाने के गोदाम में परिदान के लिए प्रदत्त करना अपेक्षित है।

परन्तु, जहां कोई चीनी कारखाना निकटतम रेल स्टेशन या रेल के किसी बाहरी अभिकरण से या कारखाने के बाहर गोदाम से जिसका रेल सम्पर्क नहीं है, पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, वहां उत्पादक, रेल द्वारा माल भेजे जाने की दशा में चीनी कारखाने और ऐसे रेल स्टेशन के बाहरी अभिकरण के बीच या गोदाम के द्वार पर परिदान की दशा में चीनी कारखाने और ऐसे गोदाम के बीच पांच किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति क्विंटल चीनी पर प्रति किलोमीटर तेरह पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार लें सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस आदेश में :

(क) अनुसूची-1 और 2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो विक्रय कर के बदले में है और विशेष उत्पाद शुल्क हैं, जिसकी वसूली उत्पादक, सुसंगत समय पर प्रवृत्त दर पर, इसी आदेश द्वारा अवधारित कीमतों के अतिरिक्त कर सकेगा।

(ख) अनुसूची-1 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत कारखाने के गोदाम से परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर रेल स्टेशन या उत्पादक द्वारा साधारणतः उपयोग किए जाने वाले साइडिंग पर रेल वैगनों में लदाई का खर्च भी है और उनमें साइडिंग या वैगन कर्षण निभार और अन्य आनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित हैं।

(ग) अनुसूची-2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत कारखाने के गोदामों से परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर चीनी की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में लदाई खर्च भी है और उनमें अन्य सभी आनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित हैं।

4. इस आदेश के अंतर्गत निर्धारित मूल्य चीनी मौसम 2004-2005 में उत्पादित चीनी पर और चीनी मौसम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् पहली अक्टूबर, 2004 को अथवा इसके बाद परिदान की गई चीनी पर लागू होंगे।

अनुसूची-I

कारखाने से 5 किलोमीटर की दूरी तक अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट कारखाने के बारे में भा0ची0भा0 की सभी श्रेणियों के लिए रेल बैगनों में परिवहन की दशा में कीमतें (उत्पाद शुल्क रहित)।

क्रम संख्या	जोन	(रूपये प्रति क्विंटल में) सभी भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों की चीनी की कीमत
1.	आन्ध्र प्रदेश	1367.48
2.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड	1220.90
3.	बिहार(उत्तर)	1410.87
4.	गुजरात(दक्षिण)	1234.32
5.	गुजरात(सौराष्ट्र)	1418.71
6.	हरियाणा	1246.76
7.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	1346.90
8.	शेष कर्नाटक	1292.25
9.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	1430.94
10.	मध्य प्रदेश	1425.54
11.	महाराष्ट्र(दक्षिण)	1346.38
12.	महाराष्ट्र(उत्तर)	1319.73
13.	महाराष्ट्र(मध्य)	1338.60
14.	पंजाब	1285.74
15.	राजस्थान	1374.82
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1337.21
17.	उत्तर प्रदेश(मध्य)	1332.34
18.	उत्तर प्रदेश(पूर्व)	1384.98
19.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	1277.49

नोट : जहां रेलवे स्टेशन फैक्ट्री से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है प्रति क्विंटल 0.13 रूपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

अनुसूची- II

अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा०ची०मा० की सभी श्रेणियों के लिए क्रेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में, परिदान की दशा में कीमतें (उत्पाद शुल्क रहित)

क्रम संख्या	जोन	(रूपये प्रति क्विंटल में) सभी भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों की चीनी की कीमत
1.	आन्ध्र प्रदेश	1365.91
2.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड	1219.33
3.	बिहार(उत्तर)	1409.30
4.	गुजरात(दक्षिण)	1232.75
5.	गुजरात(सौराष्ट्र)	1417.14
6.	हरियाणा	1245.19
7.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	1345.33
8.	शेष कर्नाटक	1290.68
9.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	1429.37
10.	मध्य प्रदेश	1423.97
11.	महाराष्ट्र(दक्षिण)	1344.81
12.	महाराष्ट्र(उत्तर)	1318.16
13.	महाराष्ट्र(मध्य)	1337.03
14.	पंजाब	1284.17
15.	राजस्थान	1373.25
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1335.64
17.	उत्तर प्रदेश(मध्य)	1330.77
18.	उत्तर प्रदेश(पूर्व)	1383.41
19.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	1275.92

अनुसूची - III

क्रम सं० चीनी फैक्ट्री का नाम और उसका स्थान

1.	2.
आन्ध्र प्रदेश	
1.	दि किरलामपुडी शुगर मिल्स लि०, पो०आ० पोथपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी
2.	श्री सरवारया शुगर मिल्स लि०, पो०आ० चेल्लर, तालुक रामचन्द्रपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी
3.	नवभारत फेरोअलायस लि०, पो०आ० समालकोट, जिला ईस्ट गोदावरी
4.	आन्ध्र शुगर्स लि०, टनकू, जिला वेस्ट गोदावरी.
5.	दी पालाकोल कोआपरेटिव शुगर्स लि०, पूलारेल्ली, पालाकोट, जिला पश्चिम गोदावरी.
6.	वी०वी०एस० शुगर्स (दि जयपुर शुगर कं० लि०) पो०आ० चागुल्लू, जिला वेस्ट गोदावरी
7.	वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शुगर्स लि०, भीमाडोल, जिला वेस्ट गोदावरी
8.	दि आन्ध्र शुगर्स लि०, तुडुवई, जिला वेस्ट गोदावरी
9.	दि चोदावरम कोआपरेटिव शुगर्स लि०, पो०आ० गोवाडा, जिला विशाखापत्तनम
10.	अनकापल्ले कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज सोसाइटी लि०, अनकापल्ले, जिला विशाखापत्तनम
11.	इतिकोपाका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, पो०आ० इतिकोपाका, जिला विशाखापत्तनम
12.	दि थांडवा कोआपरेटिव शुगर्स लि०, पयाकायपेटा, जिला विशाखापत्तनम
13.	श्री विजयराम गजपति कोआपरेटिव शुगर लि०, कुमारन, तालुक श्रुंगव्वारापुकोटा, भीमसिंही, जिला विशाखापत्तनम.
14.	अमदलावालसा कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, पो०आ० अमदलावालसा, जिला श्रीकाकुलम
15.	वारालक्ष्मी शुगर्स लि०, रगीडी में संकली, अमदलावालसा मंडल, जिला श्रीकाकुलम
16.	दि के०सी०पी० शुगर एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, पो०आ० वय्यरू, जिला कृष्णा
17.	दि के०सी०पी० शुगर एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा

18. डेल्टा शुगर लि०, श्री नवाराप्पा पाले हनुमान जंक्शन, जिला कृष्णा
19. दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, शंकरनगर, जिला निजामाबाद
20. दि निजामाबाद कोआपरेटिव शुगर्स फैक्ट्री लि०, निजामाबाद, जिला निजामाबाद.
21. एन०सी०एस० गायत्री शुगर्स प्रा०लि०, अल्लूरेड्डी, तहसील सदाशिवनगर, जिला निजामाबाद
22. दि चित्तूर कोआपरेटिव शुगर्स फैक्ट्री लि०, चित्तूर, पो०आ० तवातापल्ले, जिला चित्तूर
23. श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शुगर्स फैक्ट्री लि०, गाजुलामंडायम (तिरुपति), रेनीगुंटा, जिला चित्तूर
24. श्री वाणी शुगर्स इंडस्ट्रीज लि०, कुमारनाथम, जिला चित्तूर
25. प्रूडेंशियल शुगर्स लि०, निंदरा गांव, तहसील निंदरा मंडल, जिला चित्तूर
26. सुदालगुन्टा शुगर्स लि०, गांव बचिनायडू कन्ड्रिगा, चित्तूर
27. ट्राइडेन्ट शुगर्स लि०, पो०आ० डीडगी, तालुक जहीराबाद, जिला मेढक
28. निजाम डेक्कन शुगर्स लि०, तालुक और जिला मेढक
29. गणपति शुगर्स इंडस्ट्रीज लि०, कुलुबगुर सांगारेड्डी मंडल, जिला मेढक
30. दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा
31. दी कुड्डापपा कोआपरेटिव शुगर लि०, तालुक दौलतापुरम, जिला नेल्लौर
32. दि कोवूर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, कोवूर, जिला नेल्लौर
33. गायत्री शुगर काम्पलेक्स लि०, प्रभागिरी पतनम, पोडालाकुर मंडल, जिला नेल्लौर
34. इम्पी शुगर एंड केमिकल्स लि०, अय्यररेड्डी पालेम, नायडुपेट मंडलम, जिला नेल्लौर
35. निजाम डेक्कन शुगर्स लि०, पो०आ० मैटपल्ली, जिला करीमनगर
36. नांदयाल कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० पोन्नापुरम, नांदयाल, जिला कुरनूल.
37. क्रेब्स बायो केमीकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि०, तेनाली, जिला गुंटूर
38. दि नागार्जुन कोआपरेटिव शुगर्स लि०, गुरुजाला, जिला गुंटूर
39. मधुकोन शुगर्स लि०, राजेश्वरापुरम, जिला खम्माम
40. काकतिया सीमेन्ट शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, पेरुवुंचा, तहसील कल्लूर मंडल, जिला खम्माम
41. एन०सी०एस० शुगर्स लि०, पो०बा० 1, खैराताबाद, हैदराबाद, (एट लक्ष्म्यापेटा, जिला विजयनगरम)

42. सागर शुगर्स एंड एलायड प्राडक्ट्स लि०, नेलावई, ग्राम, श्री रंगराजपुरम मंडल, जिला चित्तूर

असम

1. दि असम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० बारुआबामुनगांव, जिला सिबसागर.
2. कचार शुगर मिल्स लि०, पो०आ० रतबाड़ी, चारगोला, जिला करीमगंज
3. नवगांव कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० कामपुर, जिला नवगांव

उड़ीसा

1. जेपोर शुगर कं० लि०, रायगाडा, जिला कोरापुट.
2. दि अस्का कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, पो०आ० अस्का, जिला गंजम
3. दि बरगढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, (अंडर मैनेजमेंट ऑफ पोन्नी शुगर्स एंड केमिकल्स लि०), पो०आ० तोरा, बरगढ़, जिला संबलपुर
4. दि कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, (अंडर मैनेजमेंट ऑफ धारनी शुगर एंड केमिकल्स लि०) तहसील नयागढ़, जिला पुरी
5. बादम्बा कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, (अंडर मैनेजमेंट ऑफ शक्ति शुगर लि०) तहसील बंकी, जिला कटक
6. वैस्टर्न इंडिया शुगर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, धरमगढ़, तहसील धरमगढ़, जिला कालाहांडी
7. पोन्नी शुगर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, एट बोलांगीर, जिला बोलांगीर
8. शक्ति शुगर्स लि०, हरिपुर, गांव धेनकनाल सदर, जिला धेनकनाल

पश्चिम बंगाल

1. खेतान एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, प्लासी, जिला नदिया
2. वेस्ट बंगाल शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, अहमदपुर, जिला बीरभूम

बिहार (उत्तरी)

1. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, लोहाट, जिला मधुबनी.
2. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, सकरी, जिला मधुबनी.
3. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट रयाम, जिला दरभंगा.
4. न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि०, पो०आ०, हसनपुर शुगर मिल्स, जिला समस्तीपुर

5. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, समस्तीपुर यूनिट, जिला समस्तीपुर.
6. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर.
7. रीगा शुगर कं० लि०, पो०आ० रीगा, जिला सीतामढ़ी.
8. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट गारोल्, जिला वैशाली.
9. मोतीहारी चीनी उद्योग लि०, (लेसी ऑफ ईस्टन शुगर इंडस्ट्रीज लि०) जिला ईस्ट चम्पारन
10. मोतीलाल पदमपत उद्योग लि०, पो०आ० मझोलिया, जिला वेस्ट चम्पारन
11. चम्पारन शुगर कं० लि०, चनपतिया, जिला वेस्ट चम्पारन
12. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, लौरिया, जिला वेस्ट चम्पारन.
13. बगहा चीनी मिल्स लि०, पो०आ० नरायणपुर, जिला वेस्ट चम्पारन
14. दि अवध शुगर-मिल्स लि०, नरकटियागंज, जिला वेस्ट चम्पारन
15. हरिनगर शुगर मिल्स लि०, हरिनगर, जिला वेस्ट चम्पारन
16. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, सुगौली, जिला ईस्ट चम्पारन.
17. चम्पारन शुगर कं० लि०, बड़चकिया, जिला ईस्ट चम्पारन.
18. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, पो०आ० न्यू सिवान, जिला सिवान.
19. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, पो०आ० सिवान, जिला सिवान.
20. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, पो०आ० मीरगंज, जिला गोपालगंज.
21. भारत शुगर मिल्स लि०, पो०आ० सिधवलिया, जिला गोपालगंज.
22. सासा-मुसा शुगर वर्क्स(प्रा०) लि०, जिला गोपालगंज.
23. दि विष्णु शुगर मिल्स लि०, पो०आ० विष्णु शुगर मिल्स, गोपालगंज, जिला गोपालगंज.
24. कानपुर शुगर वर्क्स लि०, मारहोवराह, जिला सारण.
25. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट गराह, जिला गया.
26. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट वारीसालीगंज, जिला नवादा,
27. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, बनमंखी, जिला पूर्निया.
28. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट बिहटा, जिला पटना.

गुजरात (दक्षिणी)

1. श्री खेडूत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० सरदार बाग, बावन, बादरोली, जिला सूरत
2. श्री माधी विभाग खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० माधी, जिला सूरत
3. श्री चलथान विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, पो० चलथान, जिला सूरत

4. श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सयान, जिला सूरत
5. श्री महुआ प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० जेरवावरा, तालुक महुआ, जिला सूरत
6. श्री उकाई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० पनियारी, जिला सूरत
7. श्री खेदूत सहकारी खांड उद्योग मंडली, कोसाम्बा, तहसील मंगरोल, जिला सूरत
8. श्री कामरेज विभाग शेतकरी खांड उद्योग मंडली लि०, कामरेज, जिला सूरत
9. श्री वालोद प्रदेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, वीरपुर, तालुक वालोद, जिला सूरत.
10. दि सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० गणदेवी, वाया बिल्लीमोरा, जिला बलसाड
11. श्री मरोली विभाग खांड सहकारी उद्योग मंडली लि०, कल्याणनगर, पो०आ० मरोली, जिला बलसाड
12. श्री बलसाड सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, परनेरा पारदि, जिला बलसाड
13. श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, पो०आ० वतारिया, तालुक वालिया, जिला भरुच, (वातारिया)
14. श्री रेवाखांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, एट एंड पो० आमोद, तालुक आमोद, जिला भरुच.
15. श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, धारीखेड़ा, तालुक नानडोड, जिला भरुच
16. वड़ोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक संघ लि०, गंधारा, जिला वड़ोदरा
17. सरदार कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, लाधोद, तहसील संखेड, जिला वड़ोदरा

गुजरात (सौराष्ट्र)

1. चारोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पलाज, पेटलाड, जिला कैरा
2. श्री विलेश्वर खांड उद्योग खेदूत सहकारी मंडली लि०, पो०आ० कोडीनगर, जिला अमरोली
3. सरदार वल्लभभाई पटेल खांड उद्योग को०सोसायटीज लि०, पो०आ० धोराजी, जिला राजकोट

4. श्री ऊना तालुक सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० ऊना(सौराठ), जिला जूनागढ़
5. श्री तलाला तालुक सहकारी खांड उद्योग लि०, पो०आ० तलाला, जिला जूनागढ़(गीर)

हरियाणा

1. दि सरस्वती शुगर मिल्स, पो०आ० यमुनानगर, जिला अम्बाला
2. दि हरियाणा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० रोहतक, जिला रोहतक
3. दि महम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, महम, जिला रोहतक
4. दि पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पानीपत, जिला पानीपत
5. दि करनाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, करनाल, जिला करनाल
6. सोनीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, सोनीपत, जिला सोनीपत
7. शाहबाद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, थानेश्वर, जिला कुरुक्षेत्र
8. दि जींद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, -तहसील व जिला जींद
9. दि पलवल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पलवल, जिला फरीदाबाद
10. दि कैथल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कैथल, जिला कैथल
11. दि भूना कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भूना, तहसील फतेहगढ़, जिला हिसार
12. मै० पिकाडिल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, सेक्टर 17-ए, एस०सी०ओ० 40-41, चंडीगढ़, इन्द्री में स्थित, जिला करनाल
13. चौधरी देवीलाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गांव-पानीवाला मोटा, जिला सिरसा
14. दि हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गोहाना, जिला सोनीपत
15. नारायणगढ़ शुगर मिल्स लि०, नारायणगढ़, जिला अम्बाला

उत्तर पश्चिम कर्नाटक

1. दि नादावरी शुगर मिल्स लि०, समीरवाडी, वाया महालिंगपुर, तालुक मुगोल, जिला बीजापुर
2. दि उगर शुगर वर्क्स लि०, पो०आ० उगर खुर्द, जिला बेलगाम
3. श्री मालाप्रभा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, एम०के० हुबली, जिला बेलगाम
4. श्री दूधगंगा कृष्ण सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो०आ० चिकाड़ी, जिला बेलगाम

5. रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो0आ0 रायबाग, जिला बेलगाम
6. दि घटप्रभा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो0आ0 गोकाक, जिला बेलगाम
7. श्री हालासिद्धनाथ सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, निपानी, जिला बेलगाम
8. श्री हिरण्याकेशी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो0आ0 संकेश्वर, जिला बेलगाम
9. श्री भाग्यलक्ष्मी सहकारी शक्कर कारखाना लि0, मुसुरपुर, तालुक खानपुर, जिला बेलगाम
10. नंदी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, बीजापुर, तालुक और जिला बीजापुर
11. रायतारा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, राणानागम, तहसील मढोल, जिला बीजापुर
12. कर्नाटक सहकारी शक्कर कारखाना लि0, हवेरी, जिला धारवाड़
13. रेणुका शुगर्स लि0, मनोली, तालुक सवादती, जिला बेलगाम
14. प्रभुलिंगेश्वर शुगर वर्क्स लि0, सिद्धापुर, जिला बागलकोट
15. जाम खांडी शुगर्स लि0, हीरेपडासालागी, तहसील जामखांडी, जिला बीजापुर
16. वेंकटेश्वर पावर प्रोजेक्ट लि0, बेडाकिहाल, तालुक चिकोली, जिला बेलगाम
17. निरानी शुगर्स लि0, मुधोल-507313, जिला बागलकोट
18. अतानी फारमर्स शुगर फैक्ट्री लि0, मादाभावी गांव, तालुक अतानी, जिला बेलगांव
19. कृष्णा एस0एस0के0 लि0, कोकाटनोर, तहसील अतानी, जिला बेलगांव
20. जेम शुगर्स लि0, कुंडारगी गांव, बिलिजी, तालुक बागलकोट
21. दयामयोगी श्री शिवकुमार स्वामी जी शुगर्स लि0, हिरेबिनूर, तालुक इन्दी, जिला बीजापुर

शेष कर्नाटक

1. सुन्दरी शुगर्स लि0, पो0आ0 काम्पली शुगर फैक्ट्री, जिला बेल्लारी
2. शिरुगुप्पा शुगर्स ऐंड केमिकल्स प्रा0 लि0, शिरुगुप्पा तालुक, जिला बेल्लारी
3. सालारजंग शुगर मिल्स लि0, मुनीराबाद, जिला रायचूर

4. गंगावती शुगर्स लि०, पो०आ० प्रगतिनगर, तालुक गंगावती, जिला रायचूर
5. तुगभद्रा शुगर वर्क्स प्रा०लि०, शिमोगा, जिला शिमोगा
6. मैसूर पेपर मिल्स लि०, भद्रावती, जिला शिमोगा
7. गौरीबिदानुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गौरीबिदानुर, जिला कोलार
8. बिदर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, हलीखेड़, जिला बिदर
9. वाणीबिलास कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, हिरियूर, जिला चित्रदुर्ग
10. भद्रा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, दूदाबाठी, दरबगिरी, तालुक जिला चित्रदुर्ग
11. देवनगिर शुगर कं० लि०, तालुक देवनगिर, जिला चित्रदुर्ग
12. खोडे डिस्टिलरीज कोल्लिंगल, जिला मैसूर
13. बन्नारी अम्मन शुगर लि०, अलगांची तालुक, नरंजगुडा, जिला मैसूर
14. श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, चुनचनाकाटे, कृष्णराज नगर, जिला मैसूर
15. दि हेमवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, हसन, जिला हसन
16. सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, तहसील अलांड, जिला गुलबर्गा
17. पांडवपुरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पांडवपुरा, जिला मांडया
18. मैसूर शुगर कं० लि०, पो०आ० मांडया, जिला मांडया
19. चामुंडेश्वरी शुगर्स लि०, कालामुण्डाना, डोडी, तालुक गडूर, जिला मांडया
20. दि इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि०, पो० चितवादगी होस्पेड, जिला मांडया
21. आई०सी०एल० शुगर्स लि०, मक्कावली, तहसील के०आर०पेट्ट, जिला मांडया
22. शामनुर शुगर्स लि०, दुग्गावथी, तहसील हरदनहल्ली, जिला बेल्लारी
23. नारंजा एस०एस०के० लि०, गांव चिल्लेरगी, जिला बीदर
24. महात्मा गांधी सहकारी साखर कारखाना लि०, भालकी, जिला बीदर
25. एस०सी०एम० शुगर्स लि०, कोप्पा, मद्दूर तालुक, जिला मांडया

केरल

1. दि कोआपरेटिव शुगर्स लि०, चित्तूर, पो०आ० मेननपाड़ा, जिला पालघाट
2. दि त्रावणकोर शुगर एंड केमिकल्स लि०, वालंजावत्तम, पो०आ० तिरुवल्ला, जिला क्विलोन

गोवा

1. संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दयानन्दनगर, पो०आ०(गोवा)

तटीय कर्नाटक

1. दक्षिण कन्नड सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बंभमवार-मंगलौर, जिला साउथ कनारा

मध्य प्रदेश

1. दि ग्वालियर शुगर क०लि०, पो०आ० डाबरा, जिला ग्वालियर
2. जावरा शुगर मिल्स, पो०आ० जावरा, जिला रतलाम
3. दि भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि०, पो०आ० सिहोर, जिला सिहोर
4. दि जीवाजी राव शुगर क०लि०, दलौदा, जिला मंदसौर
5. एम०पी० स्टेट इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०, पो०आ० मोहिदपुर रोड, जिला उज्जैन
6. मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कैलारस, जिला मुरैना
7. मालवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बरलाई (काशीपाड़ा) जिला इंदौर
8. नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, दुरहानपुर, जिला खंडवा
9. गिरधारी लाल शुगर एंड एलाइज इंडस्ट्रीज लि०, घाटवा, तालुक थीकरी, जिला खरगौन
10. कृषक एस०एस०के० मर्यादित, नरायणपुरा, तहसील राघोगढ़, जिला गुना
11. जवाहरलाल नेहरू सहकारी सातु मिल लि०, सरवर डेरला, जिला खरगौन
12. भोरामदेव सहकारी शाखर उत्पादक कारखाना मर्यादित, तहसील और जिला क्वारधा

महाराष्ट्र (मध्य)

1. श्री पांडुरंग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० श्रीपुर, जिला शोलापुर
2. दि ससवाडमाली शुगर फैक्ट्री लि०, पा०आ० मालीनगर, जिला शोलापुर
3. सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अकलुज, जिला शोलापुर
4. श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सदाशिवनगर, जिला शोलापुर
5. श्री सिद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुमाथे, पो०आ० टेकवाडी, जिला शोलापुर

6. विट्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गुरुशाला, तालुक पंढरपुर, जिला शोलापुर
7. भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, तकली सिकन्दर, तहसील महोल, जिला शोलापुर
8. भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, इरले बैरेग, तालुक बरसी, जिला शोलापुर
9. श्री संत दामाजी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिरनादगी, तहसील करमाला, जिला शोलापुर
10. इन्दिरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मिरजागिम, तालुक अकालपेट, जिला शोलापुर
11. आदिनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, लावे भलवानी तहसील करमाला, जिला शोलापुर
12. चन्द्रभाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भलवानी, तहसील पंढरपुर, जिला शोलापुर
13. दि रावलगांव शुगर फार्म लि०, पो०आ० रावलगांव, जिला नासिक
14. गिरना सहकार साखर कारखाना लि०, पो०आ० भाऊसाहेबनगर, जिला नासिक
15. कर्मवीर काकासाहेब बाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रनवाड़, तालुक निफाड, जिला नासिक
16. कडवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मतेरवाडी, तालुक दिनदोरी, जिला नासिक
17. निफाड सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भाऊसाहेबनगर, तालुक निफाड, जिला नासिक
18. नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पालसे, जिला नासिक
19. बसन्तराव दादा पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, विथेवाडी, (लेहोनेर), तहसील कांलवा, जिला नासिक
20. दि कोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० कालपेवाड़ी, जिला अहमदनगर
21. दि प्रवारा शहरी साखर कारखाना लि०, प्रवारानगर, जिला प्रवारानगर, जिला अहमदनगर-413706
22. अशोक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अशोकनगर, तालुक श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर
23. श्री गणेश सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० रंजनगांव खुर्द, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर

24. दि संजीवनी (तकली)सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० शिंगनापुर तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर
25. दि राहुरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, श्री शिवाजीनगर, पो० राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर
26. दि श्रीगोंडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, री गोंडा फैक्ट्री जिला अहमदनगर
27. संगमनेर भाग सहकारी शक्कर कारखाना लि, अमरुदनगर तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर
28. श्री दयानेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि, भेदने बी०के० तालुक निवाशा, जिला अहमदनगर
29. श्री जगदम्बा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, राशिन, तहसील कर्जत, जिला अहमदनगर
30. श्री वृद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० वृद्धेश्वर शक्कर कारखाना, तालुक पथारडी, जिला अहमदनगर (पिंपालगांव)
31. दि मूला सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० सोनाई तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर
32. परनेर तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परनेर, जिला अहमदनगर
33. भाऊसाहेब महादेव हांडे अगस्ती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, जामनगर, तहसील अठाला, जिला अहमदनगर
34. केदारेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० पथारडी बुधेगांव, सोगांव, जिला अहमदनगर
35. इंदापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बीजावदि, तालुक इंदापुर, जिला पुणे
36. श्री छत्रपति सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भवानीनगर, तालुक इन्दापुर, जिला पुणे
37. दि मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० मालेगांव बी०के० तालुक बारामती, जिला पुणे
38. श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० सोमेश्वरनगर, जिला पुणे
39. यशवंत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, चिन्तामणिनगर, पो०आ० थियूर, जिला पुणे
40. भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० पटास, तहसील डौड, जिला पूणे
41. विघ्नाहर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, जुन्नार, जिला पुणे
42. राजगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना लि०,, अनंतनगर(निगाडे) तालुक भोर, जिला पुणे
43. गोदगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, नहोरे तहसील सिरूर, जिला पुणे

44. श्री संत तुकाराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कसरसाई, तह० हुलसी, जिला पुणे
45. भीमा शंकर सहकार साखर कारखाना लि०, अम्बेगांव-अवसारी, जिला पुणे
46. लोकमंगल एग्री इंडस्ट्रीज लि०, गांव-बीबी दरपड्डल, तालुक उत्तरी शोलापुर, जिला शोलापुर
47. साईकृपा साखर कारखाना लि०, देवदैथान, तालुक-श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर
48. लोकनीति बाबूराव पाटिल सहकार साखर कारखाना लि०, लक्ष्मीनगर अंगार, तालुक मोहोल, जिला शोलापुर
49. नगर तालुक सहकार साखर कारखाना लि०, वाल्की, तालुक नागस, जिला अहमदनगर
50. नीरा भीमा सहकार साखर कारखाना लि०, शाहजी नगर, तालुक इंदापूर, जिला पुणे
51. संगोला तालुक सहकार साखर कारखाना लि०, वाकी (शिवाने), तालुक संगोला, जिला शोलापुर
52. विठ्ठल राव शिंदे सहकार साखर कारखाना लि०, गंगामाई नगर, तालुक माघा, जिला शोलापुर
53. श्री मकाई एस०एस०के० लि०, भिलारवाडी तालुक करमाला जिला शोलापुर
54. कुकाडी एस०एस०के० लि०, पिम्पल गांव पीसा, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर
55. श्री चांगदेव शुगर मिल्स लि०, चांगदेवनगर, जिला अहमदनगर
56. राजाराम बापू एस०एस०के० लि०, वाटेगांव-सुरुल, यूनिट नं००२, डा० वाटेगांव, तालुक वाल्वा, जिला सांगली

महाराष्ट्र (दक्षिणी)

1. भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शाहूनगर, तालुक करनीर, जिला कोल्हापुर
2. श्री छत्रपति साखर कारखाना लि०, कस्बा बवाडा, जिला कोल्हापुर
3. श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गंगानगर इंचालकरंजी, जिला कोल्हापुर
4. श्री वारना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० वर्णानगर, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर

5. कुम्भी केसारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुदित्रे, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर
6. श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बिदरी (मौनीनगर) तालुक काजल, जिला कोल्हापुर
7. श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, असुराले-पालें, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर
8. श्री दत्ता शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, तालुक शिरो, जिला कोल्हापुर
9. दौलत शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर
10. गांधीगलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर
11. छत्रपति साहू सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० कागल, जिला कोल्हापुर
12. जवाहर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, डुपारी, जिला कोल्हापुर
13. अजरा शेतकारी एस०एस०के० लि०, पो० गवासे, तहसील अजरा, जिला कोल्हापुर
14. कृष्णा एस०एस०के० लि०, रीठारेबुदरूक, पो०आ० शिवनगर, जिला सतारा
15. श्री राम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० फाल्टन, जिला सतारा
16. न्यू फाल्टन शुगर वर्क्स लि०, तालुक फाल्टन, यपो०आ० शाखरवाडी, जिला सतारा
17. किसानवीर सतारा एस०एस०के० लि०, भुज, तालुक वाल, जिला सतारा
18. बालासाहेब देसाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दौलतनगर (मराठी) तालुक फाल्टन, जिला सतारा
19. सहयाद्री सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवंतनगर, तालुक कराड, जिला सतारा
20. अंजिनकयात्रे सहकारी शक्कर कारखाना लि०, ~~चिन्हे~~, जिला सतारा
21. जरणदेश्वर एस०एस०के० लि०, चिमानगांव, तालुक कोरेगांव, जिला सतारा
22. राजाराम बापू पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, राजारामनगर, पो०आ० इस्लामपुर, तालुक वाल्टा, जिला सांगली
23. वसंतदादा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० सांगली, जिला सांगली

24. जाट तालुक शेतकारी एस०एस०के० लि०, ऐट तिपेहाल्ली, तालुक जठ, जिला सांगली
25. विश्वास सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवंतनगर, तालुक शिराला, जिला सांगली
26. हुतात्मा किसान अहीर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वाल्वा, जिला सांगली
27. यशवंत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, नागेवाडी खानेपुर, एट एंड पो० नागेवाडी, जिला सांगली
28. महाकाली एस०एस०के० लि०, कवाठे महाकाली, जिला सांगली
29. तासगांव तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, तसगांव, तुरची फटा, पो० तुरची, तालुक तसगांव, जिला सांगली महाराष्ट्र-416312
30. मानगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सोनारसिद्ध नगर, जिला सांगली
31. सोनहीरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वांगी, तालुक खानपुर, जिला सांगली
32. कागल तालुक सहकार साखर कारखाना लि० हमदाडे कौलागे, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर
33. निनाई देवी सहकार साखर कारखाना लि०, कुकासूद, तालुक शीराला, जिला सांगली
34. दोंगाराइक संगरेश्वर शेतकारी सहकार साखर कारखाना लि०, रायगांव, तालुक खानपुर, जिला सांगली
35. रायत सहकार साखर कारखाना लि०, शेवालेवडी, तालुक कराड, जिला सतारा
36. शरद सहकार साखर कारखाना लि०, नारांडे, तालुक हतकंगाले, जिला कोल्हापुर
37. उदयसिंहराव गायकवाड एस०एस०के०लि०, सोनावडे, जिला कोल्हापुर
38. क्रांति एस०एस०के० लि०, कुंडल तालुक पलास, जिला सांगली
39. प्रतापगढ एस०एस०के०लि०, कालघर, तालुक जवाली, जिला सतारा
40. सर्वोदय एस०एस०के० लि०, कारंदबाडी तालुक वालवा, जिला सांगली
41. मोहनराव शिंदे एस०एस०के० लि०, मोहन नगर तालुक मिराज, जिला सांगली
42. इंदिरा गांधी भारतीय महिला विकास एस०एस०के० लि०, तम्बाले तालुक भूदरगढ, जिला कोल्हापुर

43. पाद.डा० डी.वाई. पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि०, दयाशांतिनगर, तहसील गगनबवाड़ा, जिला कोल्हापुर
44. श्री गुरुदत्त शुगर्स लि०, तकलीवाड़ी, तालुक शिरोल, जिला कोल्हापुर

महाराष्ट्र (उत्तरी)

1. श्री पंजारकां एस०एस०के० लि०, भादने, तालुक शाकरी, जिला धूलिया
2. सिद्धखेड़ा सहकार साखर कारखाना लि०, एट देगांव, तहसील सिद्धखेड़ा, जिला धूलिया
3. पुष्पदंतेश्वर एस०एस०के० लि०, समशेरपुर, तालुक नानदुर्बा, जिला धूलिया
4. संजय सहकार साखर कारखाना धुले सिद्धखेड़ा आमलनेर लि०, विजयनगर, तहसील और जिला धुले
5. सिरपुर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० सिरसपुर, जिला धुले
6. श्री सतपुड़ातापी परिसर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शहादा, पो०आ० पुरुषोत्तम नगर, जिला धुलिया
7. जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दुसारवीड, तालुक मेहकर, जिला बुलधाना
8. तेरना शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, नलदुर्ग, तालुक तुलजापुर, जिला औसमानाबाद
9. तुलजा भवानी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, नलदुर्ग, तालुक तुलजापुर, जिला ओस्मानाबाद
10. गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद
11. सिद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मानिकनगर, तालुक सिल्लौड़, जिला औरंगाबाद
12. दि कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० कन्नड़, जिला औरंगाबाद
13. दि विनायक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परसोडा, पो०आ० दिओन्दागरी, तालुक बैजापुर, जिला औरंगाबाद
14. श्री संत एकनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पैथन, जिला औरंगाबाद
15. श्री नामदेव राव बी० घाटेकर देवगिरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, फुलाम्बरी, तालुक और जिला औरंगाबाद
16. कालम्बर विभाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कालम्बी एट पो० गांधीनगर, तालुक कांथेर, जिला नानदेड़

17. शंकर एस0 एस0के0 लि0, फूलेनगर, तहसील भोकर, जिला नांदेड़
18. श्री भाऊराव चौहान सहकारी शक्कर कारखाना लि0, देवगांव, तहसील और जिला नांदेड़
19. गोदावरी मन्नार सहकारी शक्कर कारखाना लि0, शंकरनगर, पो0आ0 रामतीर्थ, तालुक बिलौली, जिला नानदेड़
20. जयवंत पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि0, हदसनी, तहसील हदगांव, जिला नानदेड़
21. जय अम्बिका सहकारी शक्कर कारखाना लि0, मोहननगर कुन्दूर, तहसील बिलौली, जिला नानदेड़
22. श्री शंकर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि0, गांव मंगरूल जिला यवतमाल
23. वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पुसाड, जिला यवतमाल
24. जय किसान सहकारी शक्कर कारखाना लि0, बोदेगांव, तहसील धारवा, जिला यवतमाल
25. सुधाकरराव नाईक सहकारी शक्कर कारखाना लि0, चिखाली, तालुक पुसाड, जिला यवतमाल
26. दि अम्बाजोगई सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0आ0 अम्बा शक्कर, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड
27. जय भवानी सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0आ0 ग्याराई, जिला बीड
28. काड़ा सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0आ0 काड़ा, तालुक अस्थी, जिला बीड
29. गजानन सहकारी शक्कर कारखाना लि0, सोनाजीनगर, पो0आ0 राजुरी, जिला बीड
30. माजलगांव एस0एस0के0 लि0, निठरूड तहसील माजलगांव, जिला बीड
31. बैद्यनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पांगरी, तहसील अम्बाजोगई, जिला बीड
32. मधुकर सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0आ0 पड्डेजपुर, जिला जलगांव
33. वसंत सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0आ0 कसौडा, तालुक इरानडोर, जिला जलगांव
34. बेलगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0आ0 चालीसगांव (भोरस) जिला जलगांव
35. श्री चोपड़ा एस0एस0के0 लि0, माचाले, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव

36. श्री संत मुक्ताबाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, घोडसगांव, तहसील एदलाबाद, जिला जलगांव
37. मराठवाड़ा सहकार साखर कारखाना लि०, पो०आ० डोंगरखेड़ा, तालुक पाथेरी, जिला पारभनी
38. गोदावरी दुधान सहकारी शक्कर कारखाना लि०, देवनांद्रा, पो० और तालुक पाथुरी, जिला पारभनी
39. नरसिम्हा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, लोहगांव, जिला पारभनी
40. वाराशिव हनुमान सहकारी शक्कर कारखाना लि०, ज्वालाबाजार, तहसील ब्रासमत्तनगर, जिला पारभनी
41. पूर्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० बसामत नगर, जिला पारभनी
42. समर्थ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० वादिगोदरी, तालुक अम्बबाड, जिला जालना
43. जालना शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रानगर ग्राम जिला जालना
44. श्री बागेश्वरी एस०एस०के० लि०, बारपड्डला वारतूर, जिला जालना
45. जय जवान जय किसान एस०एस०के० लि०, नालेगांव, जिला लातूर
46. शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० किल्लारी, जिला लातूर
47. मंजारा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, चिचौली राव (वाडी) शिवाजी चौक, जिला लातूर
48. शिवाजीराव पाटिल नीलांगकर एस०एस०के० लि०, अमीलगा (बी०के०) जिला लातूर
49. शेतकारी सहकार साखर कारखाना लि०, दमन गांव, तहसील चन्दूर रेलवे स्टेशन, जिला अमरावती
50. श्री कोंडेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रामनगर, तहसील फूलगांव, जिला अमरावती
51. महात्मा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गांव जागेनी, तालुक सलौर, जिला वर्धा
52. सहाकार महर्षि लैट श्री बापूरावजी देशमुख सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वेला, तहसील हिंगनघाट, जिला वर्धा
53. दि वेनगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, देवदा (बी०के०) तहसील नोहाडी, जिला भंडारा
54. बालाजी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मसलापेन तालुक रितोड, जिला अकोला

55. अकोला जिला एस0एस0के लि0, बिजोरा जिला अकोला
56. श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि0, बावदेव तहसील मौदा, जिला नागपुर
57. श्रीराम गणेश गडकरी सहकारी शक्कर कारखाना लि0, सावनेर, जिला नागपुर
58. नेचुरल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि0, रंजनी, तहसील काल्लम, जिला उस्मानाबाद
59. गंगामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि0, घाटनंदा तहसील सिलौद, जिला औरंगाबाद
60. बालाघाट शेतकारी सहकार साखर कारखाना लि0, उजाना, तहसील अहमदपुर, जिला लातूर
61. द्वारकाधीश साखर कारखाना लि0, साहनारे तालुक बागलां, जिला नासिक
62. सारंगधर शुगर मिल्स लि0, उकाली, तालुक महकर, जिला बुल्दाना
63. अनुराधा शुगर मिल्स लि0, श्रीमुंशाजी महाराजनगर, तालुक वारू (धाड़), जिला बुल्दाना
64. छत्रपति संभाजी राजे साखर उद्योग लि0, दीनदयाल नगर, चिट्टेपिंपलगांव, तालुक और जिला औरंगाबाद
65. जयमहेश शुगर इंडस्ट्रीज लि0, पवारवाड़ी, तालुक माजलगांव, जिला बीड
66. पद्मश्री विठ्ठल राव विखे पाटिल एस0एस0के0 लि0, कोठी, तालुक कैज, जिला बीड
67. पन्नागेश्वर शुगर मिल्स लि0, पानगांव, तालुक रेनापुर, जिला लातूर
68. श्रीरामेश्वर सहकार साखर कारखाना लि0, रावसाहिब नगर, पोतसिकोरा बाजार, तालुक ओकारदन, जिला जालना
69. डा0 बाबा साहेब अम्बेदकर सहकार साखर कारखाना लि0, केशेगांव, जिला उस्मानाबाद
70. श्री विठ्ठल एस0एस0के0 लि0, मुरुम, तालुक उमरगा, जिला उस्मानाबाद
71. विकास एस0एस0के0 लि0, वैशाली नगर, निवली, तालुक और जिला लातूर
72. योगेश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लि0, लक्ष्मीनगर, लिंबा, तालुक पठारे, जिला पारभनी
73. शिवशक्ति शेतकारी एस0एस0के0 लि0, वासी (तंडुलवाड़ी), तालुक वासी, जिला उस्मानाबाद
74. शम्भु महादेव शुगर एण्ड एलायड इंडस्ट्री लि0, हावर गांव, तालुक जिला उस्मानाबाद
75. श्री संत शिरोमणि मारुति, एस0एस0के0 लि0, मौलीनगर, बेलकुण्ड तालुक औसा जिला लातूर

76. शिवशक्ति आदिवासी एण्ड मेगास्वर्गीय एस0एस0के0 लि0 पाहुरजीरा, तहसील शेगांव, जिला बुलढाना
77. प्रियदर्शनी सेतकारी एस0एस0के0 लि0, टाँडर, तालुक उदगीर, जिला लातूर
78. जय शिव शंकर, एस0एस0के0 लि0, शेषनगर, मंजरी तालुक मुखेद, जिला नानदेड़
79. रावेर तालुका एस0एस0के0 लि0, औकारेश्वर, करजोड़ तालुक रोवर, जिला जलगांव
80. हिवारामाई शुगर इंडस्ट्री लि0, मौनढाले तालुक पचोरा, जिला जलगांव
81. नरसिंहा, एस0एस0के0 लि0, इंदापुर तालुक वाशी, जिला उस्मानाबाद
82. रीना एस0एस0के0 लि0, निवाड़ा, तालुक रीनापुर, जिला लातूर
83. भीमाशंकर शुगर मिल्स लि0, पड़गांव, तालुक वाशी, जिला उस्मानाबाद
84. वैष्णवी शुगर (इंडिया) लि0, शिव भास्कर नगर, डा0 शेनदुरजन, तालुक सिंदखील राजा, जिला बुलढाना
85. आदिवासी एस. एस. के. नवापुरा - नंदरबार विभाग लि0, दोकाने, तालुक नवापुरा, जिला नादूरबार

नागालैण्ड

1. नागालैण्ड शुगर मिल्स लि0, दीमापुर, जिला कोहिमा

पंजाब

1. दि मोरिंडा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, मोरिंडा जिला रोपड़
2. वाहिद सांधर शुगर लि0, फगवाड़ा, जिला कपूरथला
3. भगवानपुर शुगर मिल्स लि0, धुरी, जिला संगरूर
4. दि भोगपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, भोगपुर, जिला जालंधर
5. नकोदर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, तहसील नकोदर, जिला जालंधर
6. दि दोआबा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, नवांशहर, जिला नवांशहर
7. दि बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, बटाला, जिला गुरुदासपुर
8. गुरुदासपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, (पनिगार) जिला गुरुदासपुर
9. जीरा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, जीरा, जिला फिरोजपुर
10. फाजिल्का कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, फाजिल्का, जिला फिरोजपुर
11. बुडैवाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, तहसील सगरोला, जिला लुधियाना

12. दि जगरावं कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, हातुर कबलापुर, जिला लुधियाना(पंजाब) पिन-142026
13. तरनतारन कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, सिरोंड, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर
14. दि अजनाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, अजनाला, जिला अमृतसर
15. राणा शुगर लि०, सवेमान, बाबा बकाला, जिला अमृतसर
16. दि बुद्धलाड़ा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बुद्धलाड़ा, तहसील मनसा, जिला भटिंडा
17. दि फरीदकोट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, जिला फरीदकोट पंजाब पिन-151202
18. ओसवाल शुगर लि०, जी०टी०रोड, मुकेरियां, जिला होशियारपुर
19. पटियाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, रखारा, पो०आ० 71, पटियाला-147001
20. पिकाडली शुगर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, पतरान तहसील समाना, जिला पटियाला
21. नाहर शुगर्स एंड एलाइड इंडस्ट्री लि०, अमलोह, तहसील नाभा, जिला पटियाला
22. गुरु तेगबहादुर शुगर्स लि०, ग्रा०-रोमधावा, तहसील दसुवा, जिला होशियारपुर
23. मार्कफेड शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्री मलौत, जिला मुक्तसर

राजस्थान

1. दि मेवाड़ शुगर मिल्स लि०, पो०आ० भूपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़
2. दि गंगानगर शुगर मिल्स लि०, पो०आ० श्रीगंगानगर, जिला गंगानगर
3. श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, पो०आ० केशोरायपाटन, जिला बूंदी

तमिलनाडु

1. ई०आई०डी० पैरी(इंडिया)लि०, पो०आ० पुगालुर शुगर फैक्ट्री, जिला त्रिचिरापल्ली
2. ई०आई०डी० पैरी(इंडिया)लि०, पो०आ० पट्टाईवेटलाई, जिला त्रिचिरापल्ली
3. कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लि०, कट्टूर, तालुक ललगुडी, जिला त्रिचिरापल्ली
4. पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि०, एराईयूर, तालुक पेराम्बलूर, जिला त्रिचिरापल्ली
5. ई०आई०डी० पैरी(इंडिया)लि०, नेलीकुप्पम, जिला साउथ अरकाट
6. मैसर्स राजश्री शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, मुडियामाक्कम, जिला साउथ अरकाट

7. श्री अम्बिका शुगर्स लि०, पेनादम, जिला दक्षिण अरकाट
8. कलाकुरीची कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० मंकीत्थुरईपट्ट, जिला साउथ अरकाट
9. दि कलाकुरीची-II कोआपरेटिव शुगर मिल्स, काचिरायापालयाम, तालुक कालाकुरीची, जिला विल्लूपुरम, रामास्वामी पडयाचियार
10. चंगलरायन कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ०पेरियासेवलाई, उलन्दरपेट तालुक, जिला साउथ अरकाट
11. एम०आर० कृष्णामूर्ति कोआपरेटिव शुगर मिल्स, सेथियाथोपे चिदम्बर तालुक, जिला साउथ अरकाट
12. तमिलनाडु शुगर कोआपरेशन लि०, पांडियारापुरम (वाया), कोडईकेनाल रोड, जिला मदुरै
13. दि नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ०मठपट्टी, वाया अलगानालूर, जिला मदुरै
14. राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लि०, बैडगड्डम, पो०आ० पेरियाबुल्लम तालुक, जिला मदुरै
15. अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कृष्णापुरम पो०आ० जिला कोयम्बतूर
16. थिरुअरूरन शुगर्स लि०, कोल्लूमनगुडी, विलेज इन पेरालम/ अगराधीरुमालम, फिरका, नन्नीतलम, तालुक नगर, क्वैड मिलैथम
17. अरिगनार अन्ना शुगर्स मिल्स लि०, पो०आ० कुरुनगुल्लम, जिला थंजाबूर
18. नाडिपिस्सई पुलन्नर कोआपरेटिव रामास्वामी शुगर मिल्स लि०, मावलाथुरई, जिला थंजाबूर
19. थीरु अरूरान शुगर्स लि०, यूनिट तरुमंडनकुटी, पापनसम तालुक, जिला थंजाबूर
20. श्री अम्बिका शुगर्स लि०, कोट्टूर, टीकेथिरुविदैयमरुथूर, जिला थंजाबूर
21. दि अम्बर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ०वाडपुडपेट, जिला नार्थ आरकाट
22. तिरुमात्तूर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कंयडापट्टी, बनियामबाडी, तालुक, जिला नार्थ आरकाट
23. दि वेल्लोर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० वेल्लोर शुगर मिल्स, अमुनिडी, जिला नार्थ आरकाट
24. तमिलनाडु कोआपरेटिव शुगर फेडरेशन लि०, चण्णार/बांडीवास, जिला नार्थ आरकाट, जिला नार्थ अरकाट

25. धरानी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, के० अरापुड़ी तालुक पाल्लूर, जिला थिरुवनामलाई सम्भूरायार
26. दि मदुरांतकम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० पाडालम, जिला चिंगलपुट
27. एस०वी० शुगर मिल्स लि०, वाजलाबाद, फिरका, जिला चेगलापट्ट, एम०जी०आर०
28. तिरुत्तनी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तिरुवलांगाडू पो० तालुक, तिरुत्तनी, जिला चिंगेलेपाट्टु
29. दि शक्ति शुगर मिल्स लि०, शक्तिनगर, पो०आ० इरोडे, आर०एम०एस०, जिला पेरियार
30. बन्नारि अम्मान शुगर्स लि०(अलाथूकोम्बाई) तहसील सत्यामंगलम, जिला पेरियार
31. दि सालेम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोहनुर, जिला सालेम
32. पोन्नी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, पालिपलायम, तालुक तिरुचेंगोडा, जिला सालेम
33. धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० तरुनेलवेली पो०आ० पालाकोडे, जिला धर्मपुरी
34. सुब्रमन्या शिवा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तहसील हरूर, जिला धर्मपुरी
35. धरानी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, लोकेशन शिवागिरी, जिला तरुनेलवेली
36. शक्ति शुगर्स लि०, कन्नारिरूपामाथुर शिवगंगई तालुक, जिला बासुपोन मथुरामालिगम
37. ई०आई०डी० पैरी (इंडिया) लि०, अरंगतांगी, जिला पुडुकोट्टाई
38. अरुणाचलम शुगर मिल्स लि०, मालापम्मबडी गांव, तालुक और जिला थिरुवन्नामलाई

पांडिचेरी

1. दि किसान शुगर मिल्स प्रा०लि०, सकरूर(अगियूर) पो०आ० कंडामंगलम, पांडिचेरी
2. दि पांडिचेरी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, लिंगारेड्डीपलायम, हानडीपेट, केम्यूनी, पांडिचेरी

उत्तर प्रदेश(मध्य)

1. दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, साथा, जिला अलीगढ़
2. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, बदायूं पो०आ०, जिला बदायूं

3. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, चांदपुर, जिला बिजनौर
4. अपर गंगेज शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज सिवहारा, जिला बिजनौर
5. दि धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, जिला बिजनौर
6. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, चांदपुर, जिला बिजनौर
7. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, स्नेह रोड, नजीबाबाद रोड(बिजनौर)
8. द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि0, द्वारकेश नगर, ग्राम बुंदेकी पो0आ0 गेदूपुर साल्तान तहसील, नगीना, जिला बिजनौर
9. दि अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद
10. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, यूनिट अमरोहा, जिला मुरादाबाद
11. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला हसनपुर, जिला मुरादाबाद
12. चड्डा शुगर्स प्रा0लि0, घनौरा, जिला मुरादाबाद
13. वीनस शुगर लि0, माझावाली, तहसील संभल, जिला मुरादाबाद
14. धामपुर शुगर मिल्स लि0, अरागोली, तहसील संभल, जिला मुरादाबाद
15. दिवान शुगर्स लि0, अगवानपुर, जिला मुरादाबाद
16. रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर, जिला रामपुर
17. दि केसर एंटरप्राइजेज लि0, बहेड़ी, जिला बरेली
18. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, खेमीखेड़ा, जिला बरेली
19. जे0के0 इंडस्ट्रीज लि0, मीरगंज, जिला बरेली
20. ओसवाल ओवरसीज लि0, नवाबगंज, जिला बरेली
21. रोजा शुगर वर्क्स(प्रा0 औध शुगर मिल्स लि0), रोजा, जिला शाहजहांपुर
22. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, तिलहर, जिला शाहजहांपुर
23. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो0आ0 पोआयन, जिला शाहजहांपुर
24. एल0एच0 शुगर फैक्ट्रीज लि0, पीलीभीत, जिला पीलीभीत
25. दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, मझौला, जिला पीलीभीत
26. बिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर, जिला पीलीभीत
27. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पूरनपुर, जिला पीलीभीत
28. डी0एस0एम0 एग्रो प्रोडक्ट्स लि0, डी0एस0एम0 शुगर(काशीपुर), काशीपुर, जिला नैनीताल
29. दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, जिला नैनीताल
30. किच्छा शुगर कं0 लि0, किच्छा, जिला नैनीताल
31. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, राजपुर-पूरनपुर-नदेड़ी, पो0आ0 जसपुर, जिला नैनीताल
32. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल

33. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गदरपुर, जिला नैनीताल
34. शेरवानी शुगरर्स सिंडीकेट लि०, नेवली शुगर फैक्ट्री, पो० नेवली, जिला एटा
35. बजाज हिन्दुस्तान लि०, गोलागोकरननाथ, जिला खीरी
36. दि गोविंद शुगर मिल्स लि०, पो०आ० ऐरा एस्टेट, जिला खीरी
37. दि सरजू सहकारी मिल्स लि०, बिलराया, जिला लखीमपुर खीरी
38. बजाज हिन्दुस्तान लि०, पालियाकलां, जिला खीरी
39. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सम्पूर्ण नगर, तहसील नीगांसन जिला लखीमपुर खीरी
40. घाघरा शुगर लि०, अजबलपुर, ब्लाक पासगांव, जिला लखीमपुर खीरी
41. किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि०, रूपनगर, जिला हरदोई
42. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद
43. छाता शुगर कं० लि०, पो०आ० छाता, जिला मथुरा
44. घाटमपुर शुगरर्स कं० लि०, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर
45. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट रामपुर, जिला रामपुर
46. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, बरेली, जिला बरेली
47. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, हरदोई, जिला हरदोई

उत्तर प्रदेश (पूर्वी)

1. दि अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव, जिला सीतापुर
2. दि सेकसरिया बिस्वां शुगर फैक्ट्री लि०, बिस्वां, जिला सीतापुर
3. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, महमूदाबाद (अवध) जिला सीतापुर
4. डालमियां सीमेंट (भारत) लि०, रामगढ़ चीनी मिल्स स्थान रामगढ़ तहसील मिसरीख, जिला सीतापुर
5. कमलापुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, कमलापुर, जिला सीतापुर
6. दि यूनाइटेड प्रोविन्सीज शुगर कं० लि०, सिरोही, जिला पडरौना
7. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बेतालपुर, जिला देवरिया
8. कानपुर शुगर वर्क्स लि०, पो०आ० गौरीबाजार, जिला देवरिया
9. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट देवरिया, जिला देवरिया
10. दि कनोरिया शुगर एंड जनरल मैनुयू क० लि०, कैप्टेनगंज, जिला पडरौना
11. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट खड्डा, पो०आ० राजाबाजार खड्डा, जिला पडरौना
12. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट लक्ष्मीगंज, जिला पडरौना

13. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०, यूनिट रामकोला, जिला पडरौना
14. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट रामकोला, जिला पडरौना
15. कानुपर शुगर वर्क्स लि०, पडरौना, जिला पडरौना
16. कानपुर शुगर वर्क्स लि०, कठकुंडिया, जिला देवरिया
17. दि प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, प्रतापपुर, जिला देवरिया
18. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट भटनी, पो०आ० भटनी, जिला देवरिया
19. सराया शुगर मिल्स लि०, सरदारनगर, जिला गोरखपुर
20. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट पिपराइच, पो०आ० पिपराइच, जिला गोरखपुर
21. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट सिसवाबाजार, जिला महाराजगंज
22. स्वदेशी माइनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कं० लि०, आनंदनगर, जिला महाराजगंज
23. जे०वी०एच० शुगर कारपोरेशन लि०, गडौरा तहसील मचलौल, जिला महाराजगंज
24. दि बस्ती शुगर मिल्स को० लि०, पो०आ० बस्ती, जिला बस्ती
25. गोविन्दनगर शुगर लि०, पो०आ० बाल्टरगंज, जिला बस्ती
26. खलीलाबाद शुगर मिल्स लि०, खलीलाबाद, जिला बस्ती
27. दि बलरामपुर शुगर मिल्स लि०, पो०आ० बभनान, जिला गोंडा
28. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बलरामपुर, जिला गोंडा
29. तुलसीपुर शुगर कं० लि०, तुलसीपुर, जिला गोंडा
30. इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि०, मीजापुर, जिला गोंडा
31. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट जरबल रोड, पो०आ० जरबल रोड, जिला बहराइच
32. श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, नानपाड़ा, जिला बहराइच
33. चिलवारिया शुगर एंड केमिकल्स प्रा० लि०, चिलवारिया, जिला बहराइच
34. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बाराबंकी, जिला बाराबंकी
35. धामपुर शुगर मिल्स लि०, रोजागांव, जिला बाराबंकी
36. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट शाहगंज, जिला जौनपुर
37. कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स लि०, मोतीनगर, जिला फैजाबाद
38. काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, ओरई, जिला वाराणसी
39. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, रसरा, जिला बलिया
40. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, साथियां, जिला आजमगढ़
41. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, घोसी, जिला मऊ
42. नन्दगंज सिहोरी शुगर कं० लि०, दरियापुर, जिला रायबरेली

43. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सुल्तानपुर, अंबध
44. हैदरगढ़ चीनी मिल्स, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी
45. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, छितौनी, जिला पड़रौना
46. दि यू०पी० स्टेट शुगर फैक्ट्रिज फेडरेशन लि०, धुरियापार, ब्लॉक ऊर्वा, दि गोलाबाजार, जिला गोरखपुर
47. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, घुघली, जिला महाराजगंज
48. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, मुंडेरवा, जिला बस्ती
49. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०,
50. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, नवाबगंज, जिला गोंडा
51. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट-बाराबंकी, जिला बाराबंकी
52. नंदगंज सिरोही शुगर कं० लि०, डा० नंदगंज, जिला गाजीपुर

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

1. दि मोदी इंडस्ट्रीज लि०, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद
2. दि सिम्भावली शुगर मिल्स लि०, सिम्भावली, जिला गाजियाबाद
3. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट मोहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ
4. दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला मेरठ
5. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट सकौतीटांडा, पो०आ० सकौतीटांडा, जिला मेरठ
6. सिअल शुगर लि०, मवाना, जिला मेरठ
7. दि बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बागपत, जिला मेरठ
8. दि रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि०, रमाला, जिला मेरठ
9. एस०बी०ई०सी० शुगर लि०, मलकपुर, तहसील बड़ौत, जिला बागपत
10. दि त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, शुगर यूनिट अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर
11. मंसूरपुर शुगर मिल्स लि०, मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर
12. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट रोहनाकलां, पो०आ० रोहना मिल्स, जिला मुजफ्फरनगर
13. दि अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, सामली, जिला मुजफ्फरनगर
14. दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, मोरना, तालुक जनसथ, जिला मुजफ्फरनगर
15. मोनेट इंडस्ट्रीज लि०, तहसील, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर

16. शिएल लि०, तिताबी, जिला मुजफ्फरनगर
17. टिकोला शुगरर्स मिल्स लि०, टिकोला तहसील, जनसथ, जिला मुजफ्फरनगर
18. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट पन्नीनगर, जिला बुलन्दशहर
19. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अनूपशहर, जहांगीरबाद, जिला बुलन्दशहर
20. विलार्ड इंडिया लि०, शुगर डिवीजन (अगोटा शुगर एंड केमिकल्स), अगोटा, जिला बुलन्दशहर
21. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट डोईवाला, जिला देहरादून
22. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०, देवबंद, जिला सहारनपुर
23. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट सहारनपुर, जिला सहारनपुर
24. किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, सरसावां, जिला सहारनपुर
25. शाकुम्बरी शुगर एंड अलार्ड इंडस्ट्रीज लि०, टोडरपुर (रागर) जिला शाहजहांपुर
26. दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, ननौता, जिला सहारनपुर
27. दया शुगर, नयाबांस, तहसील गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर
28. राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स प्रा०कं० लि०, लक्सर, जिला हरिद्वार
29. दि महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं० लि०, इकबालपुर, जिला हरिद्वार
30. उत्तम शुगर मिल्स लि०, गांव लिब्बरहेड़ी, जिला हरिद्वार
31. दि यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, मलियाना, जिला मेरठ

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****ORDER**

New Delhi, the 12th January, 2005

G.S.R. 17(E)/Ess. Com./Sugar.— In exercise of the powers conferred by sub-Section (3C) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:—

(1) Short title and commencement:— (1) This order may be called the Sugar (Price Determination for 2004-2005 Production) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition: In the Order, unless the context otherwise requires:—

(a) "Indian Sugar Standards Grade (ISS GRADES)" means the grades represented by the standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur, conforming to the Standards L.-29, M.-29, S.-29, L.-30, M.-30, S.-30, L.-31, M.-31, S.-31 and SS 31 as specified by the Central Government.

(b) "Schedule" means a schedule annexed to this Order.

3. Price of Sugar produced in 2004-2005 Season:— (1) The prices as specified in Column 3 of Schedule 1 or Schedule II, as the case may be, against the zones specified in the corresponding entry in column 2, shall be the prices payable for all the Indian Sugar Standards (ISS) grades of sugar, packed in 'A', Twill new gunny bags and produced in 2004-2005 sugar season by all vacuum pan sugar factories specified in Schedule III, which are required to be supplied to any person, organization or State Government under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 for delivery at buyer's option in (i) railway wagons or (ii) the buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate or factory godowns:

Provided that where a sugar factory is situated at a distance exceeding five kilometers from the nearest railway station or an out agency of the railways or from the godowns outside the factory not connected, the producer may charge additional thirteen paise per quintal of sugar per kilometer beyond five kilometers of the distance between the sugar factory and such railway station or the out agency of the railway in case of dispatches by rail or between the sugar factory and such godowns in case of delivery ex-godowns.

Explanation – In this Order:-

(a) the prices specified in column 3 of Schedule I and Schedule II do not include the excise duty, additional excise duty in lieu of sale tax, and the special excise duty, which the producer can recover at the rate in force at the relevant time, in addition to the prices as determined under this Order;

(b) the prices specified in column 3 of Schedule I include transport from factory godown and loading, at buyer's option, into railway wagons at the railway station or siding generally used by the producer and including siding or wagons hauling, dunnage and other incidentals;

(c) the prices specified in column 3 of Schedule II includes transport from godowns and loading of sugar, at buyer's option, into carts, lorries or other means or transport at the factory gate/factory godowns and includes all other incidentals.

4. The prices determined under this Order shall apply to the sugar produced in the sugar season 2004-2005 and delivered on or after the date of commencement of sugar season that is the 1st day of October 2004.

SCHEDULE I

Prices for delivery into railway wagons for all ISS Grades (excluding Excise Duty) in respect of factories specified in Schedule III upto a distance of 5 kilometres from the factory.

(Rupees per quintal)

Sl. No.	Zone	All India Sugar Standards (AISS) Grades of Sugar
(1)	(2)	(3)
1.	ANDHRA PRADESH	1367.48
2.	ASSAM, ORISSA, WEST BENGAL AND NAGALAND	1220.90
3.	BIHAR (NORTH)	1410.87
4.	GUJARAT(SOUTH)	1234.32
5.	GUJARAT(SAURASHTRA)	1418.71
6.	HARYANA	1246.76
7.	NORTH-WEST KARNATAKA	1346.90
8.	REST OF KARNATAKA	1292.25
9.	KERALA, GOA AND COASTAL KARNATAKA	1430.94
10.	MADHYA PRADESH	1425.54
11.	MAHARASHTRA (SOUTH)	1346.38

12.	MAHARASHTRA (NORTH)	1319.73
13.	MAHARASHTRA (CENTRAL)	1338.60
14.	PUNJAB	1285.74
15.	RAJASTHAN	1374.82
16.	TAMILNADU AND PONDICHERRY	1337.21
17.	UTTAR PRADESH (CENTRAL)	1332.34
18.	UTTAR PRADESH (EAST)	1384.98
19.	UTTAR PRADESH (WEST)	1277.49

NOTE: Where the Railway Station is beyond 5 kilometres from the factory, an additional amount of Rs. 0.13 per kilometres per quintal of sugar shall be paid.

SCHEDULE II

Prices for delivery into Buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown for all ISS Grades (excluding Excise Duty) in respect of factories specified in Schedule III.

(Rupees per quintal)

Sl. No.	Zone	All India Sugar Standards (AISS) Grades of Sugar
(1)	(2)	(3)
1.	ANDHRA PRADESH	1365.91
2.	ASSAM, ORISSA, WEST BENGAL AND NAGALAND	1219.33
3.	BIHAR (NORTH)	1409.30
4.	GUJARAT (SOUTH)	1232.75
5.	GUJARAT (SAURASHTRA)	1417.14
6.	HARYANA	1245.19
7.	NORTH-WEST KARNATAKA	1345.33
8.	REST OF KARNATAKA	1290.68
9.	KERALA, GOA AND COASTAL KARNATAKA	1429.37
10.	MADHYA PRADESH	1423.97
11.	MAHARASHTRA (SOUTH)	1344.81
12.	MAHARASHTRA (NORTH)	1318.16
13.	MAHARASHTRA (CENTRAL)	1337.03
14.	PUNJAB	1284.17
15.	RAJASTHAN	1373.25
16.	TAMILNADU AND PONDICHERRY	1335.64
17.	UTTAR PRADESH (CENTRAL)	1330.77
18.	UTTAR PRADESH (EAST)	1383.41
19.	UTTAR PRADESH (WEST)	1275.92

SCHEDULE III

Sl.No (1)	Name & Location of Sugar Factory (2)
ANDHRA PRADESH	
1.	The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., P.O. Pithapuram Distt. East Godavari
2.	Shri Sarvaraya Sugar Ltd., P.O. Chelluru, Tal. Ramchandrapuram, Distt. East Godavari.
3.	Nava Bharat Ferro Alloys Ltd., Samalkot, Distt. East Godavari.
4.	Andhra Sugars Ltd., Tanuku, Distt. East Godavari.
5.	The Palakol Cooperative Sugars Ltd., Poolarelli, Palakol, Distt. West Godavari.
6.	VVS Sugars (The Jeypore Sugar Co. Ltd.), P.O. Chagallu, Distt. West Godavari.
7.	West Godavari Coop. Sugars Ltd., Bhimadole, Taluka Eluru, Distt. West Godavari.
8.	The Andhra Sugars Ltd., Taduvai, Distt. West Godavari.
9.	The Chodavaram Coop. Sugars Ltd., Govada, Distt. Vishakhapatnam.
10.	Anakapalle Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Anakapalle Distt. Visakhapatnam.
11.	Etikoppaka Coop. Agri. & Indl. Society Ltd. Etikoppaka, Distt. Visakhapatnam.
12.	The Thandava Coop. Sugars Ltd., Payakarapopeta, Distt. Visakhapatnam.
13.	Shri Vijayarama Gajapati Cooperative Sugars Ltd., Kumaram, Tal. Srungavarapukota, Bhimasinghi, Distt. Visakhapatnam.
14.	Amadalvalasa Coop. Agricultural & Industrial Society Ltd., Amadalvalasa, Distt. Srikakulam.
15.	Varalakshmi Sugars Ltd., Sankil in Rigid, Amadalvalasa Mandal, Distt. Srikakulam.
16.	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., Vuyyuru, Distt. Krishna.
17.	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., Lakshmipuram, Distt. Krishna.
18.	Delta Sugar Ltd, Serinavasannapale, Hanuman Junction, Dist. Krishna
19.	Nizam Deccan Sugars Ltd., Shakarnagar, Dist. Nizamabad.
20.	The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., Nizamabad, Distt. Nizamabad.
21.	Gayatri Sugar Ltd. Adluryellareddy, Teh. Sadashivnagar, Distt. Nizamabad.
22.	The Chittoor Cooperative Sugar Ltd., Chittoor, P.O. Tsavatepalli, Distt. Chittoor
23.	Shri Venketashwara Cooperative Sugar Factory Ltd., Gazulamandayam (Tirupati), Renigunta, Distt. Chittoor.
24.	Shree Vaani Sugars & Industries Ltd., Kummaranatham, Distt. Chittoor.
25.	Prudential Mouli Sugars Ltd. at Nindra Village, Teh. Nindra Mandal, Distt. Chittoor.
26.	Sudalagunta Sugars Ltd., Butchinaidu Kandriga, Distt. Chittoor.
27.	Trident Sugars Ltd., P.O. Didgi, Tal. Zaheerabad, Distt. Medak.
28.	Nizam Deccan Sugars Ltd., Taluka & Distt. Medak.
29.	Ganapati Sugar Industries Ltd., Kulubgur, Sangareddy Mandal, Distt. Medak.
30.	The Nizam Sugar Factory Ltd., Miryalguda, Distt. Nalgonda.
31.	The Cuddapah Cooperative Sugar Ltd., Tal. Daulatapuram, Distt. Nellore.
32.	The Kovur Cooperative Sugar Factory Ltd., Kovur, Distt. Nellore.
33.	Gayatri Sugar Complex Ltd., Prabhagiri Patnam, Podalakur Mandal, Distt. Nellore.
34.	Empee Sugars & Chemicals Ltd., Ayyappareddy Palam, Naidupet Mandalam, Distt. Nellore.
35.	Nizam Deccan Sugars Ltd., P.O. Metpalli, Distt. Kanmnagar.
36.	Nandyal Coop. Sugar Ltd., P.O. Ponnapuram, Nandyal, Distt. Kurnool.

37. Krebs Biochemicals & Industries Ltd., Tenali, Distt. Guntur
38. The Nagarjuna Cooperative Sugars Ltd., Guruzala, Distt. Guntur.
39. Madhucon Sugars Ltd., Rajeshwarapuram, Distt. Khammam.
40. Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd., Peruvuncha, Vill. Kallur Mandal, Distt. Khammam.
41. NCS Sugars Ltd., P.B. No. 1, Khairatabad, Hyderabad (location at Latchayyapeta, Distt. Vizianagaram).
42. Sagar Sugars & Allied Products Ltd., Nelavoy Village, Sri Rangaranapuram Mandal, Distt. Chittoor

ASSAM

1. The Assam Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Baruabamungaon, Distt. Sibsagar.
2. Cachar Sugar Mills Ltd., P.O. Ratabari, Chargola, Distt. Karimganj.
3. Nowgong Cooperative Sugar Mills Ltd., Kampur, Distt. Nowgong.

ORISSA

1. Jeypore Sugar Co. Ltd., Rayagada, Distt. Koraput.
2. The Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., Aska, Distt. Ganjam.
3. The Baragarh Cooperative Sugar Mills Ltd., (Under the Management of Ponni Sugars & Chemicals Ltd.) P.O. Tora, Baragarh, Distt. Sambalpur.
4. The Cooperative Sugar Industries Ltd., (Under the Management of Dharni Sugar & Chemicals Ltd.) Teh. Nayagarh, Distt. Puri.
5. Badamba Cooperative Sugar Industries Ltd., (Under the Management of Sakti Sugars Ltd.), Teh. Banki, Distt. Cuttack.
6. Western India Sugar & Chemicals Industries Ltd., Dharamgarh, Teh. Dharamgarh, Distt. Kalahandi.
7. Ponni Sugars & Chemicals Ltd. at Bolangir, Distt. Bolangir.
8. Sakthi Sugars Ltd., Haripur, Village Dhankanal Sadar, Distt. Dhankanal.

WEST BENGAL

1. Khaitan Agro. Industries Ltd., Plassey, Distt. Nadia.
2. West Bengal Sugar Industries Development Corpn. Ltd., Ahmedpur, Distt. Birbhum.

BIHAR (NORTH)

1. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Lohat, Distt. Madhubani.
2. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Sakari, Distt. Madhubani.
3. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Ryam, Distt. Darbhanga.
4. New India Sugar Mills Ltd., Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, Distt. Samastipur.
5. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Samastipur Unit, Distt. Samastipur.
6. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Motipur, Distt. Muzaffarpur.
7. Righa Sugar Company Ltd., Righa, Distt. Sitamarhi.
8. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit. Garaul, Distt. Vaishali.
9. Motihari Chini Udyog Ltd., Leasee of M/s Eastern Sugars Industries Ltd., Motihari, Distt. East Champaran.
10. Motilal Padampat Udyog Ltd., Majhauia, Distt. West Champaran.
11. Champaran Sugar Company Ltd., Chanpatia, Distt. West Champaran.
12. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Lauriya, Distt. West Champaran.
13. Bagha Chini, P.O. Bara, Distt. West Champaran.
14. The Oudh Sugar Mills, P.O. Bara, Distt. West Champaran.

15. Harinagar Sugar Mills Ltd., Harinagar, Distt. West Champaran.
16. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Sugauli, Distt. East Champaran.
17. Champaran Sugar Company Ltd., Barachakia, Distt. East Champaran.
18. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. New Sawan, Distt. Siwan.
19. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Siwan, Distt. Siwan.
20. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Mirganj, Distt. Gopalganj.
21. Bharat Sugar Mills Ltd., Sidhwalia, Distt. Gopalganj.
22. Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., Sasa Musa, Distt. Gopalganj.
23. The Vishnu Sugar Mills Ltd., P.O. Vishnu Sugar Mills, Gopalganj, Distt. Gopalganj.
24. Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhowrah, Distt. Saran.
25. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Gararu, Distt. Gaya.
26. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Warisaliganj, Distt. Nawadah.
27. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Banmankhi, Distt. Purnea.
28. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Bihta, Distt. Patna.

GUJARAT (SOUTH)

1. Shri Khedut Sahkari Khand Udyog Mandi Ltd., Sardar Bag, Bardoli, Distt. Surat.
2. Shree Madhi Vibhag S. Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Madhi, Distt. Surat.
3. Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari mandli Ltd., Chalthan, Distt. Surat.
4. Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sayan, Distt. Surat.
5. Shree Mahuva Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Zarvavra, Distt. Surat.
6. Shri Ukai Pradesh Sahakari khand Udyog Mandli Ltd. at P.O. Paniari, Distt. Surat.
7. Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd. at Kosamba, Teh. Mangrul, Distt. Surat.
8. Shri Kamrej Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Kamrej, Distt. Surat.
9. Shree Valod Pradesh Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Virpur, Tal. Valod, Distt. Surat.
10. The Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Gandevi, Via Bilimora, Distt. Valsad.
11. Shri Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Kalyannagar, P.O. Maroli, Distt. Valsad.
12. Shree Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Parnera-Pardi, Distt. Valsad.
13. Shree Ganesh Khand Udyog Sahakari mandli Ltd., Desad, Taluka Valia, Distt. Bharuch (Vataria).
14. Shri Reva Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd. at & Post Amod, Taluka Amod, Distt. Bharuch.
15. Shri Narmada Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Dharikheda, Taluka Nandod, Distt. Bharuch.
16. Vadodara Distt. Cooperative Sugarcane Growers Union Ltd., Gandhara, Distt. Vadodra.
17. Sardar Cooperative Sugar Industries Ltd., Ladhod, Tehsil Sankhed, Distt. Vadodra.

GUJARAT (SAURASHTRA)

1. Charotar Sahakari Khand udyog Mandli Ltd., Village Palaj, Taluka Petlad, Distt. Kaira.
2. Shri Bileshwar Khand Udyog Khedut Sahakari mandli Ltd., Kodinar, Distt. Amreli.

3. Sardar Vallabhai Patel Khand udyog Coop. Societies Ltd., P.O. Dhoraji, Distt. Rajkot.
4. Shri Una Taluka Sahakari Khand Udyog mandli Ltd., Una (Sorath), Distt. Junagarh.
5. Shree Talala Taluka Sahakari Khnad udyog Mandli Ltd., P.O. Talala, Distt. Junagarh (Gir.).

HARYANA

- 1 The Saraswati Sugar Mills P.O. Yamunanagar, Distt. Ambala.
- 2 The Haryana Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Rohtak, Distt. Rohtak.
- 3 The Maham Cooperative Sugar Mills Ltd., Maham, Distt. Rohtak.
- 4 The Panipat Cooperative Sugar Mills Ltd., Panipat, Distt. Panipat.
- 5 The Karnal Cooperative Sugar Mills Ltd., Karnal, Distt. Karnal.
- 6 Sonapat Cooperative Sugar Mills Ltd., Sonapat, Distt. Sonapat.
- 7 Shahbad Cooperative Sugar Mills Ltd., Thaneswar, Distt. Kurukshetra.
- 8 The Jind Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. & Distt. Jind.
- 9 The Palwal Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. Palwal, Distt. Faridabad.
- 10 The Kaithal Cooperative Sugar Mills Ltd., Kaithal, Distt. Kaithal.
11. The Bhuna Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhuna, Tehsil Fatehbad, District Hissar.
- 12 M/s. Piccadily Agro. Industries Ltd., Sector-17 A, SCO.40-41, Chandigarh, location at Indri, Distt. Karnal.
- 13 Chaudhari Devilal Cooperative Sugar Mills Ltd., Vill – Panniwala Mota, District Sirsa.
- 14 The Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd., Gohana, District Sonapat.
15. Naraingarh Sugar Mills Ltd., Naraingarh, Distt. Ambala.

NORTH WEST KARNATAKA

- 1 The Godavari Sugar Mills Ltd., Sameerwadi, Mudhol, Distt. Bijapur.
- 2 The Ugar Sugar Works Ltd., Ugarkhurd, Distt. Belgaum.
- 3 Shri Malaprabha Coop. Sugar Factory Ltd., Muguthan Hubli, Distt. Belgaum.
- 4 Shree Doodhaganga Krishna SSK Niyamit, Chikodi, Distt. Belgaum.
- 5 Raibag SSK Niyamit Taluk Raibag, Distt. Belgaum.
- 6 The Ghataprabha SSK Niyamit, Gokak, Distt. Belgaum.
- 7 Shri Halasidhanath SSK Ltd., Nipani, Teh. Chikodi, Distt. Belgaum.
- 8 Shri Hiranyakeshi SSK Niyamit, Sankeshwar, Distt. Belgaum.
- 9 Shri Bhagalaxmi SSK Ltd., Mansapur, Taluk Khanapur, Distt. Belgaum.
- 10 Nandi SSK Ltd., Near Chikka Galagali, Distt. Bijapur.
- 11 Rayatara SSK Niyamit, Rannanagar TK. Mudhol, Distt. Bijapur.
- 12 Karnataka SSK Ltd., Haveri, Distt. Dharwad.
- 13 Renuka Sugars Ltd., Munoli, Tal. Sawadathi, Distt. Belgaum.
- 14 Prabhulingeshwar Sugar Works Ltd., Siddapur, Distt. Bagalkot.
- 15 Jam Khandi Sugars Ltd., Hirepadasalagi, Teh. Jamkhandi, Distt. Bijapur.
- 16 Venkateshwara Power Project Ltd., Bedakihal, Taluka chikodi, District Belgaum
- 17 Nirani Sugars Ltd., Mudhol – 507313, District Bagalkot.
18. Athani Farmers Sugar Factory Ltd., Madabhavi Village, Taluk Athani, District Belgaum.
- 19 Krishna SSK Ltd., Kokatnur, Teh. Athani, District Belgaum.
- 20 Gem Sugars Ltd., Kundargi Village, Biligi Taluk, District Bagalkot
- 21 Dnyamyogi Shri Shiv Kumar Swamiji Sugars Ltd., Hirebenur, Taluk Indi, Distt. Bijapur.

REST OF KARNATAKA

1. Sundari Sugars Ltd., P.O. Kampli Sugar Factory, Distt. Bellary.
2. Siruguppa Sugars & Chemicals Pvt. Ltd., Siruguppa Taluk, Distt. Bellary.
3. Salarjung Sugar Mills Ltd., Munirabad, Distt. Raichur.
4. Gangavati Sugars Ltd., Pragatinagar, Tal. Gangawati, Distt. Raichur.
5. Tungbhadra Sugar Works Pvt. Ltd., Shimoga, Distt. Shimoga.
6. Mysore Paper Mills Ltd., Bhadravati, Distt. Shimoga.
7. Gauribidanaur SSK Ltd., Gauribidanaur, Distt. Kolar.
8. Bidar SSK Ltd., Hallikhet, Distt. Bidar.
9. Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd., Hiriya, Distt. Chitradurga.
10. Bhadra SSK Niyamit Doddabathi, Taluk Davangere, Distt. Chitradurga.
11. Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkavada, Davangere Taluk, Distt. Chitradurga.
12. Khodey Distilleries Ltd., Kollegal, Dist. Mysore.
13. Bannari Amman Sugars Ltd., Alaganchi Village, Tal. Nanjangud, Distt. Mysore.
14. Shreerama SSK Ltd., Chunchanakatte, K.R. Nagar, Distt. Mysore.
15. The Hemavathy SSK Ltd., Hassan, Distt. Hassan.
16. SSK Niyamit, Teh. Aland, Distt. Gulburga.
17. Pandavapura SSK Ltd., Pandavapura, Distt. Mandya.
18. Mysore Sugar Co. Ltd., Mandya, Distt. Mandya.
19. Chamundeshwari Sugars Ltd., K.M. Doddi, Tal. Madur, Distt. Mandya.
20. The India Sugar & Refineries Ltd., P.O. Chitwadgi, Hospet, Distt. Bellary.
21. ICL Sugars Ltd., Makkavalli, Teh. K.R. Pet, Distt. Mandya.
22. Shamnur Sugars Ltd., Duggavathi, Teh. Harapanahalli, Distt. Bellary.
23. Naranja SSK Ltd., Village Chillergi, District Bidar.
24. Mahatma Gandhi Sahakari Sakhare Karkhana Ltd., Bhalki, Distt. Bidar.
25. SCM Sugars Ltd., Koppa, Maddur Taluk, Distt. Mandya.

KERALA

1. The Cooperative Sugars Ltd., Chittur, Menonpara, P.O. Distt. Palghat.
2. The Travancore Sugar & Chemicals Ltd., Valanjavattam, P.O. Tiruvalla, Distt. Quilon.

GOA

1. Sanjivani SSK Ltd., Dayanandnagar, Post Tiska, Distt. Goa.

COASTAL KARNATAKA

1. Dakshina Kannada Sahakari S. Karkhana Ltd., Mangalore, Tal. & Distt. South Kanara.

MADHYA PRADESH

1. The Gwalior Sugar Co. Ltd., Dabra, Distt. Gwalior.
2. Jaora Sugar Mills, Jaora, Distt. Ratlam.
3. The Bhopal Sugar Industries Ltd., P.O. & Distt. Sehore.
4. The Jiwaji Rao Sugar Co. Ltd., Dalauda, Distt. Mandasor.
5. M.P. State Industries Corporation Ltd., P.O. Mohidpur Road, Distt. Ujjain.
6. Morena Mandal SSK Ltd., Kailaras, Distt. Morena.
7. Malwa SSK Ltd., Barlai (Kashipara), Distt. Indore.
8. Navalsingh SSK Maryadit, Nagal Nagar, Durhanpur, Distt. Khandwa.
9. Girdhari Lal Sugar & Allied Industries Ltd., Teh. Thikri, Distt. Khargone.

10. Krishak SSK Mayadit, Naryanpura, Teh. Raghogarh, Distt. Guna.
11. Jawaharlal Nehru Sahakari Soot Mill Ltd., Sarvandeve, Distt. Khargaon.
12. Bhoramdev Sahakari Sakhar Utpatak Karkhana Maryadit, Tehsil and Distt. Kavardha.

MAHARASHTRA (CENTRAL)

- 1 Shree Pandurang Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Shreepur, Distt. Sholapur.
- 2 The Saswad Mali Sugar Factory Ltd., P.O. Malinagar, Distt. Sholapur.
- 3 Sahakar Maharishi Shankarao Mohite Patil Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Akluj, Distt. Sholapur.
- 4 Shri Shankar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Sadashivnagar, Distt. Sholapur.
- 5 Shree Sidheshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kumathe, P.O. Tikekarwadi, Distt. Sholapur.
- 6 Vithal Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Gursale, Taluk Pandharpur, Distt. Sholapur.
- 7 Bhima Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Sikandar Takli, Teh. Mahol, Distt. Sholapur.
- 8 Bhogawati Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Irle Vairag, Taluka Barsi, Distt. Sholapur.
- 9 Shri Sant Damaji Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shiranadagi, Teh. Karmala, Distt. Sholapur.
- 10 Indira Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Mirajagim, Tehsil Akalkot, Distt. Sholapur.
- 11 Adinath Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Lave Bhalwani, Teh. Karmala, Distt. Sholapur.
- 12 Chandrabhaga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bhalwani, Teh. Pandharpur, Distt. Sholapur.
- 13 The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., Ravalgaon, Distt. Nasik.
- 14 Girna Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., F.O. Bhausaheb nagar, Distt. Nasik.
- 15 Karamveer Kakasaheb Wagh Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ranwad, Taluk Niphad, Distt. Nasik.
- 16 Kadwa Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Materewadi, Taluka Dindori, Distt. Nasik.
- 17 Niphad Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Bhausaheb nagar, Distt. Nasik.
- 18 Nasik Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Palse, Distt. Nasik.
- 19 Vasantrao Dada Patil Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Vithewadi (Lohaner), Distt. Nasik.
- 20 The Kopergaon Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Kolpewadi, Distt. Ahmednagar.
- 21 The Pravara Sahari Sakhar Kharkana Ltd., Pravaranagar, Distt. Ahmednagar-413706.
- 22 Ashok Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ashoknagar, P.O. Shrirampur, Distt. Ahmednagar.
- 23 Shri Ganesh Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ganeshnagar, P.O. Ranjangaon Khurd, Distt. Ahmednagar.
- 24 The Sanjivani (Takli) Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Tal. Kopergaon, Distt. Ahmednagar.
- 25 The Rahuri Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Rahuri Factory, Distt. Ahmednagar.
- 26 The Shrigonda Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Shrigonda, Distt. Ahmednagar.
- 27 Sangamner Bhag Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Amritnagar, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar.

- 28 Shree Dnyaneshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bhende, Taluka Newasa, Distt. Ahmednagar.
- 29 Shri Jagdamba Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Rashin, Teh. Karjat, Distt. Ahmednagar.
- 30 Shri Vridheshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Vridheshwar Sakhar Karkhana, Taluka Pathardi, Distt. Ahmednagar (Pimpalgaon).
- 31 The Mula Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Sonai, Taluka Newasa, Distt. Ahmednagar.
- 32 Parner Taluka Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Parner, Distt. Ahmednagar.
- 33 Bhausahab Mahadeo Hande Agasti SSK Ltd., Jamgaon, Teh. Akola, Distt. Ahmednagar.
- 34 Kedareswar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bodhegaon, Teh. Shegaon, Distt. Ahmednagar.
- 35 Indapur Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bijawadi, Taluka Indapur, Distt. Pune.
- 36 Shri Chhatrapatti Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bhavaninagar, Tal. Indapur, Distt. Pune.
- 37 The Malegaon Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Malegaon B.K. Distt. Pune.
- 38 Shree Someshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Someshwarnagar, Distt. Pune.
- 39 Yeshwant Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Chintamaninagar, P.O. Theur, Distt. Pune.
- 40 Bhima Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Patas, Taluka Daund, Distt. Pune.
- 41 Vighnahar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Junnar, Distt. Pune.
- 42 Rajgad Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Nigade, Tal. Bhore, Distt. Pune.
- 43 Ghodganga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Nhavare, Teh. Shirur, Distt. Pune.
- 44 Shri Sant Tukaram Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kasarsai, Tal. Mulshi, Distt. Pune.
- 45 Bhima Shankar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Pargaon Via Avasari, Teh. Ambegaon, Distt. Pune.
- 46 Lokmangal Agro Industries Ltd., Vill – Bibi Darphal, Taluk North Solapur, District Solapur.
- 47 Saikrupa Sakhar Karkhana Ltd., Devdaithan, TK-Shrigonda, Distt. Ahmednagar.
- 48 Loknete Baburao Patil Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Laxminagar Angar, Taluk Mohol, District Solapur.
- 49 Nagar Taluk Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Walki, Taluk Nagar, District Ahmednagar.
- 50 Nira Bhima Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shahji Nagar, Taluk Indapur, District Pune.
- 51 Sangola Taluka Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Waki (Shivane), Taluk Sangola, District Solapur.
- 52 Vitthal Rao Shinde Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Gangamaye Nagar, Taluk Madha, District Solapur.
- 53 Shri Makai SSK Ltd., Bhilarwadi, Tk. Karmala, District Solapur.
- 54 Kukadi SSK Ltd., Pimpalgaon Pisa, Tk. Shrigonda, District Ahmednagar.
- 55 Shri Changdeo Sugar Mills Ltd., Changdeonagar, Distt. Ahmednagar.
- 56 Rajaram Bapu SSK Ltd., Wategaon – Surul, Unit No.2, Post Wategaon, Tk. Walwa, Distt. Sangli.

MAHARASHTRA (SOUTH)

- 1 Bhogawati Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shahunagar, Post Parite, Distt. Kolhapur.
- 2 Shri Chhatrapati Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kasaba Bhavada, Distt. Kolhapur.

- 3 Shri Panchganga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ganganagar, Ichalalkaranji, Distt. Kolhapur.
- 4 Shree Wama Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Warnanagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra.
- 5 Kumbhi Keshri Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kuditre, Tal. Karvir, Distt. Kolhapur.
- 6 Shree Dudhganga Vedganga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bidri, P.O. Mouninagar, Tal. Kagal, Distt. Kolhapur.
- 7 Shri Datta Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Asrule, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur.
- 8 Shri Datta Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shirol, Distt. Kolhapur.
- 9 Daulat Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Halkarni, Tal. Chandgad, Distt. Kolhapur.
- 10 Gadhinglaj Taluka Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Gadhinglaj, Distt. Kolhapur.
- 11 Chhatrapatti Shahu Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kagal, Distt. Kolhapur.
- 12 Jawahar Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Hupari, Tal. Hatkangale, Distt. Kolhapur.
- 13 Ajara Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Gavase, Teh. Ajara, Distt. Kolhapur.
- 14 Krishna Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shrivnagar, Distt. Satara.
- 15 Shriram Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Phaltan, Distt. Satara.
- 16 New Phalthan Sugar Works Ltd., Taluka Phaltan, P.O. Shakhawadi, Distt. Satara.
- 17 Kisanveer Satara Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bhuinj, Taluka Wai, Distt. Satara.
- 18 Balasaheb Desai Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Daulatnagar, Marali, Taluka Patan, Distt. Satara.
- 19 Sahyadri Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Yeshwantnagar, Taluka Karad, Distt. Satara.
- 20 Ajinkyatra Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shendre, Distt. Satara.
- 21 Jarandeshwar SSK Ltd., Chimangaon, Teh. Koregaon, Distt. Satara.
- 22 Rajaram Bapu Patil Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Rajaramnagar Post, Sakharale, Taluka Walwa, Distt. Sangli.
- 23 Vasantdada Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. & Distt. Sangli.
- 24 Jath Taluka Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd. At Tippehalli Jath, Taluka Jath, Distt. Sangli.
- 25 Vishwas Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Yeshwatnagar, Post Chikhali, Taluka Shirala, Distt. Sangli.
- 26 Hutatma Kisan Ahir Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Walve, Distt. Sangli.
- 27 Yeshwant Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Nagewadi, Taluka Khanpur, Distt. Sangli.
- 28 Mahankali Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kavathe Mahankal, Distt. Sangli.
- 29 Tasgaon Taluka Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Tasgaon, (Turchi Phata), Post Turchi, Taluk Tasgaon, Distt. Sangli.
- 30 Manganga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Sonarsidhnagar, Distt. Sangli.
- 31 Sonhira Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Wangi, Tal. Khanapur, Distt. Sangli.
- 32 Kagal TK Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Himadwade Koulage, Taluk Kagal, Distt- Kolhapur.
- 33 Ninai Devi Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kokarud, Taluk Shirala, Distt. Sangli.
- 34 Dongarai Sagarshwar Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Raigaon, Taluk Khanapur, Distt. Sangli.
- 35 Rayat Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shewalewadi, Taluk Karad, District Satara.
- 36 Sharad Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Narande, Taluk Hatkangale, District Kolhapur.
- 37 Udaysingrao Gaikwad SSK Ltd., Sonawade, District Kolhapur.

- 38 Kranti SSK Ltd., Kundal, Tal. Palas, District Sangli.
- 39 Pratapgad SSK Ltd., Kalghar, Tk. Jawali, District Satara.
- 40 Sarvodaya SSK Ltd., Karandwadi, Tk. Walwa, District Sangli.
- 41 Mohanrao Shinde SSK Ltd., Mohannagar, Tk. Miraj, District Sangli.
- 42 Indira Gandhi Bhartiya Mahila Vikas SSK Ltd., Tambale, Tk. Bhudargad, District Kolhapur.
43. Pad. Dr. D. Y. Patil Sahkari Sakhar Karkhana Ltd., Dnyanshantinagar, Tal. Gagan-Bavada, Distt. Kolhapur.
44. Shri Gurudatt Sugars Ltd., Takaliwadi, Tal. Shirol, Distt. Kolhapur.

MAHARASHTRA (NORTH)

- 1 Shree Panzarakan Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bhadne, Tal. Sakri, Distt. Dhulia.
- 2 Sindkheda Sahakar Sakhar Kharkana Ltd. At Degaon, Teh. Sindkheda, Distt. Dhulia.
- 3 Pushpadanteshwar SSK Ltd., Samshepur, Tal. Nadurbar, Distt. Dhulia.
- 4 Sanjay Sahakar Sakhar Kharkana Dhule Sindkheda Amalner Ltd., Vijay Nagar, Tal. & Distt. Dhule.
- 5 Shirpur Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Dahiwad, Tal. Shirpur, Distt. Dhule.
- 6 Shree Satpuda Tapi Parisar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shahada, P.O. Purshottamnagar, Distt. Dhulia.
- 7 Jijamata Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Dusarbid, Tal. Mahkar, Distt. Buldana.
- 8 Tema Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ternanagar, Taluka Dhoki, Distt. Osmanabad.
- 9 Tulja Bhawani Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Naldurg, Tal. Tuljapur, Distt. Osmanabad.
- 10 Gangapur Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Raghunathnagar, Distt. Aurangabad.
- 11 Sidheshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Sillood, Distt. Aurangabad.
- 12 The Kannad Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kannad, Distt. Aurangabad.
- 13 The Vinayak Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Parsoda, Taluka Vijapur, Distt. Aurangabad.
- 14 Shri Santh Ek-Nath Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Palthan, Distt. Aurangabad.
- 15 Shri Namdev Rao B. Gakekar Deogiri Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Phulambri, Tal. & Distt. Aurangabad.
- 16 Kalambar Vibhag Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kalamber, Post Gandhinagar, Distt. Nanded.
- 17 Shankar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Phulnagar, Teh. Bhokar, Distt. Nanded.
- 18 Shri Bhaurao Chavan Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Degaon, Teh. & Distt. Nanded.
- 19 Godavari Manar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shankarnagar, P.O. Ram Tirath, Tal. Biloli, Distt. Nanded.
- 20 Jaiwant Patil Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Hadsani, Teh. Hadgaon, Distt. Nanded.
- 21 Jai Ambika Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Mohan Nagar Kuntur, Teh. Biloli, Distt. Nanded.
- 22 Shri Shankar Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Village Mangrul, Distt. Yavatmal.
- 23 Vasant Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Pusad, Distt. Yavatmal.
- 24 Jai Kisan Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Bodegaon, Teh. Darwaha, Distt. Yavatmal.
- 25 Sudhakar Rao Naik Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Chikhali, Tal. Pusad, Distt. Yavatmal.
- 26 The Ambajogai Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Ambasakhar, Tal. Ambajogai, Distt. Beed.

- 27 Jai Bhavani Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Georai, Distt. Beed.
- 28 Kada Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Teh. Ashti, Distt. Beed.
- 29 Gajanan Cooperative Sugar Factory Ltd., Taluka & Distt. Beed.
- 30 Majalgaon Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Nithrud, Teh. Mahalgaon, Distt. Beed.
- 31 Vaidyanath Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Pangari, Teh. Ambajogai, Distt. Beed.
- 32 Madhukar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Faizpur, Distt. Jalgaon.
- 33 Vasant Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Kasoda, Distt. Jalgaon.
- 34 Belganga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Taluka Chalisgaon, Distt. Jalgaon (Bhoras).
- 35 Shri Chopada Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Machale, Teh. Chopada, Distt. Jalgaon.
- 36 Shri Sant Muktabai Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ghodasgaon, Teh. Edlabad, Distt., Jalgaon.
- 37 Marathwada Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Dongarkheda, Taluka Pathari, Distt. Parbhani.
- 38 The Godavari Dudhana Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Deonandra, Taluka Pathari, Distt. Parbhani.
- 39 Narsinha Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Lohgaon, Distt. Parbhani.
- 40 Barashiv Hanuman Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Jawala Bazar, Teh. Basmathnagar, Distt. Parbhani.
- 41 Puma Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Basmathnagar, Distt. Parbhani.
- 42 Samarth Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Mahalala, Tal. Ambad, Distt. Jalna.
- 43 Jalna Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Village Ramnagar, Teh. & Distt. Jalna.
- 44 Shri Bageshwari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Warphal, Tal. Partur, Distt. Jalna.
- 45 Jai Jawan Jai Kisan Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Nalegaon, Tal. Ahmedpur, Distt. Latur.
- 46 Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Killari, Distt. Latur.
- 47 Manjara Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Tal. Chincholirao, Distt. Latur.
- 48 Shivajirao Patil Nilangakar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ambulga (B.K.), Tal. Nilanga, Distt. Latur.
- 49 Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Dhamangaon, Tal. Chandur Rly Str. Distt. Amravati.
- 50 Shri Kondeshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ramnagar, Teh. Phubgaon, Distt. Amravati.
- 51 Mahatama Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Jamani, Tal. Salo, Distt. Wardha.
- 52 Sahakar Maharishi Late Shri Bapuraoji Deshmukh SSK Ltd., Vela, Teh. Hinganghat, Distt. Wardha.
- 53 The Wainganga Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Teh. Maholi Road, Distt. Bhandara.
- 54 Balaji Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Masalapen, Tal. Risod, Distt. Akola.
- 55 Akola Zilla Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Vizare, Distt. Akola.
- 56 Shriram Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Babdeo Teh. Mauda, Distt. Nagpur.
- 57 Ramganesha Gadkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Saoner, Distt. Nagpur.
- 58 Natural Sugar & Allied Industries Ltd., Ranjani, Tal. Kallam, Distt. Osmanabad.
- 59 Gangamai Sugar Industries Ltd., Ghatnandra, Teh. Sillod, Distt. Aurangabad.
- 60 Balaghat Shetkari Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Ujana, Teh. Ahmedpur, Distt. Latur.
- 61 Dwarkadhish Sakhar Karkhana Ltd., Shavare, P.O. Taharabas, Taluk Bagalan, Distt. Nasik.
- 62 Sharangdhar Sugar Mills Ltd., Ukali, Taluka Mehkar, District Buldana.
- 63 Anuradha Sugar Mills Ltd., Shri Munsaji, Maharajnagar, Taluk Waru (Dhad), District Buldana.
- 64 Chhatrapati Sambhaji Raje Sakhar Udyog Ltd., Dindayalnagar, Chittepimpalgaon, Taluk & District Aurangabad.
- 65 Jai Mahesh Sugar Industries Ltd., Pawarwadi, Taluk Majalgaon, District Beed.
- 66 Padamshri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil SSK Ltd., At-Kothi, Taluk Kaij, District Beed.
- 67 Pannageshwar Sugar Mills Ltd., Pangaon, Taluk Renapur, District Latur.

- 68 Shree Rameshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Raosaheb Nagar, Post Sipora Bazar, Taluk Bhokardan, District Jalna.
- 69 Dr. Baba Saheb Ambedkar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Keshegaon, District Osmanabad.
- 70 Shri Vitthal SSK Ltd., Murum, Taluk Omerga, District Osmanabad.
- 71 Vikas SSK Ltd., Vaishalinagar, Nivli, Taluk and District Latur.
- 72 Yogeshwari Sugar Industries Ltd., Laxminagar, At Limba, Taluk Pathari, District Parabhani.
- 73 Shivshakti Shetkari SSK Ltd., Washi (Tandulwadi), Tk. Washi, District Osmanabad.
- 74 Shambu Mahadev Sugar & Allied Industries Ltd., Havargaon, Tk. Kallam, District Osmanabad.
75. Shri Sant Shiromani Maruti Maharaj SSK Ltd., Maulinagar, Belkund, Tk. AUSA, District Latur.
76. Shivshakti Adiwasi & Megaswargiya SSK Ltd., Pahurzira, Tehsil Shegaon, District Buldana.
77. Priyadarshini Shetkari SSK Ltd., Tondar, Tk. Udgir, District Latur.
78. Jai Shivshankar SSK Ltd., Sheshnagar, Manjari, Tk. Mukhed, District Nanded.
79. Raver Taluka SSK Ltd., Omkareshwar, Karjod, Tk. Raver, District Jalgaon.
80. Hiwaramai Sugar Industries Ltd., Mondhale, Tk. Pachora, District Jalgaon.
81. Narsinha SSK Ltd., Indapur, Tk. Washi, District Osmanabad.
82. Rena S.S.K. Ltd., Niwada, Tal. Renapur, Distt. Latur.
83. Bhimashankar Sugar Mills Ltd., Pargaon, Tal. Washi, Distt. Osmanabad.
84. Vaishnavi Sugar (India) Ltd., Shiv Bhaskar Nagar, At Post Shendurjan, Tal. Sindkheel Raja, Distt. Buldana.
85. Aadiwasi SSK Navapura – Nandurbar Vibhag Ltd., Dokane, Tal. Navapura, Distt., Nadurbar.

NAGALAND

1. Nagaland Sugar Mills Co. Ltd., Dimapur, Distt. Kohima.

PUNJAB

- 1 The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., Morinda, Distt. Ropar.
- 2 Wahid Sandhar Sugars Ltd., Phagwara, Distt. Kapurthala.
- 3 Bhagwanpura Sugar Mills Ltd., Dhuri, Distt. Sangrur.
- 4 The Bhogpur Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhogpur, Distt. Jalandhar.
- 5 Nakodar Cooperative Sugar Mills Ltd., Nakodar, Distt. Jalandhar.
- 6 The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., Nawanshahr, Dist. Nawanshahr.
- 7 The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., Batala, Dist. Gurdaspur.
- 8 Gurdaspur Cooperative Sugar Mills Ltd., Panjar, Distt. Gurdaspur.
- 9 Zira Cooperative Sugar Mills Ltd., Zira, Dist. Ferozepur.
- 10 Fazilka Cooperative Sugar Mills Ltd., Fazilka, Distt. Ferozepur.
- 11 Budhewal Cooperative Sugar Mills Ltd., Doraha, Teh. Samrala, Distt. Ludhiana.
- 12 The Jagraon Cooperative Sugar Mills Ltd., Hathoor, Kamalpur, Distt. Ludhiana.
- 13 Taran Taran Cooperative Sugar Mills Ltd., Seron, Teh. Taran Taran, Dist. Amritsar.
- 14 The Ajnala Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhalapind, Teh. Ajnala, Distt. Amritsar.
- 15 Rana Sugars Ltd., Butter-Saviyan, Teh. Baba-bakala, Distt. Amritsar.
- 16 The Budhlada Cooperative Sugar Mills Ltd., Budhlada, Teh. Mansa,

- Distt. Bhatinda.
- 17 The Faridkot Cooperative Sugar Mills Ltd., Rori, Chatsinghwa,
Distt. Faridkot.
- 18 Oswal Sugars Ltd., Mukerian, Distt. Hoshiarpur.
- 19 Patiala Cooperative Sugar Mills Ltd. Village Rakhra, Distt. Patiala.
- 20 Piccadily Sugars & Allied Industries Ltd., Patran, Teh. Samana,
Distt. Patiala.
- 21 Nahar Sugar & Allied Industries Ltd., Amloh, Teh. Nabha, Distt. Patiala.
- 22 Guru Teg Bahadur Sugars Ltd., Village Romdhawa Teh. Dasuya, Distt.
Hoshiarpur.
- 23 Markfed Sugar & Allied Industries, Malout, District Muktsar.

RAJASTHAN

1. The Mewar Sugar Mills Ltd., Bhupalsagar, Distt. Chittorgarh.
2. The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar,
Distt. Sriganganagar.
3. Shri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Ltd., Keshoraipatan,
Distt. Bundi.

TAMILNADU

- 1 EID Parry (India) Ltd., P.O. Pugalur Sugar Factory, Distt. Tiruchirapalli.
- 2 E.I.D Parry (India) Ltd., Pettaivayasalai, Distt. Tiruchirapalli.
- 3 Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Ialgudi, Distt. Tiruchirapalli.
- 4 Perambalur Sugar Mills Ltd., Eraiyur, Taluka perambalur,
Distt. Tiruchirapalli.
- 5 EID Parry (India) Ltd., Nellikuppam, Distt. South Arcot.
- 6 M/s. Rajashree Sugars & Chemicals Ltd., Mundiapakkam District South
Arcot.
- 7 Shree Ambika Sugars Ltd., Pennadam, Distt. South Arcot.
- 8 Kallakurichi Coop. Sugar Mills Ltd., P.O. Moongilthuripattu, Tal.
Kallakurichi, Distt. South Arcot.
- 9 The Kallakurichi – II Cooperative Sugar mills Ltd., Kachirayapalayam,
Taluka Kallakurichi, Distt. Villupuram R.P.
- 10 Chengalrayan Cooperative Sugar Mills Ltd., Periyasevalai, Ulundarpet
Taluk Distt. South Arcot.
- 11 M.R. Krishnamurthy Cooperative Sugar Mills Ltd., Sethiathope, Teh.
Chidambaram, Distt. South Arcot.
- 12 Tamilnadu Sugar Corporation Ltd., Pandiarajapuram, Distt. Madurai.
- 13 The National Cooperative Sugar Mills Ltd., Metupatti, Alanganallur,
Distt. Madurai.
- 14 Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Periyakulam, Distt. Madurai.
- 15 Amravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapuram, Distt.
Coimbatore.
- 16 The Thiru Arooran Sugars Ltd., Kollumangudi Village in Peralam/Agarathirumalam
Firka in Nannilam Taluk, Distt. Nagai Quid-e-Milleth.
- 17 Arignar Anna Sugar Mills Ltd., Kurungulam, Distt. Thanjavur.
- 18 Nadippisai Pulavar K.R. Ramasamy Sugar Mills Ltd., Mayiladuthurai,
Distt. Thanjavur.
- 19 Thiru Arooran Sugars Ltd., Papanasam, Distt. Thanjavur.
- 20 Shree Ambika Sugars Ltd., Kottur T.K. Thiruvidaimaruthur, Distt.
Thanjavur.
- 21 The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vadapudupet, Ambur, Distt.

- North Arcot.
22. Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kothandapatti, Village Vaniambadi Taluk, Distt. North Arcot.
 23. The Vellore Cooperative Sugar Mills Ltd., Ammundi, P.O. Vellore Sugar Mills, Dist. North Arcot.
 - 24.. Tamilnadu Cooperative Sugar Federation Ltd., Cheyyar/Wandiwash, Distt. North Arcot.
 25. Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Karaipoondi, Teh. Polur, Distt. Thiruvannamalai Sambuvarayar.
 26. The Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, Distt. Chengalpattu.
 27. S.V. Sugar Mills Ltd., Waljabad Firka, Distt. Chengalpattu MGR.
 28. Tiruttani Cooperative Sugar Mills Ltd., Tiruttani, Distt. Chengalpattu.
 29. The Sakhti Sugars Ltd., Sakhtinagar, P.O. Erode, Distt. Periyar.
 30. Bannari Amman Sugars Ltd., Village Alathukombai, Sathyamanglam, Distt. Erode.
 31. The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur, Distt. Salem.
 32. Ponni Sugars & Chemicals Ltd., Pallipalayam, Tal. Tiruchengode, Distt. Salem.
 33. Dharmapuri Distt. Cooperative Sugar Mills Ltd., Thimmanahalli Palacode, Distt. Dharmapuri.
 34. Subramania Shiva Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. Harur, Distt. Dharmapuri.
 35. Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Tal. Sivagiri, Distt. Tirunelveli.
 36. Sakhti Sugars Ltd., Tal. Sivganga, Distt., Pasumpan Muthuraalingam.
 37. EID Parry (India) Ltd., Arantangi, Distt. Pudukottai.
 38. Arunachalam Sugar Mills Ltd., Malapambady Village, Taluk & District Thiruvannamalai.

PONDICHERRY

1. New Horizon Sugar Mills Pvt. Ltd., Sagrur (Aniyur), P.O. Kandamanglam, Distt. Pondicherry.
2. The Pondicherry Cooperative Sugar Mills Ltd. at Lingareddipalayam, Mannidipat Commune.

UTTAR PRADESH (CENTRAL)

1. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Satha, Hardeoganj, Distt. Aligarh.
2. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Badaun, Distt. Badaun.
3. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bijnor, Distt. Bijnor.
4. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd., Seohara, Distt. Bijnor.
5. The Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Distt. Bijnor.
6. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Chandpur, Distt. Bijnor.
7. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sneh Road, Najibabad, Distt. Bijnor.
8. Dwarikesh Sugar Industries Ltd., Bundki, Distt. Bijnor.
9. The Ajudia Sugar Mills Raja-Ka-Sahaspur, Distt. Moradabad.
10. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Amroha, Distt. Moradabad.
11. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Gajraula, Distt. Moradabad.
12. Chadha Sugars Pvt. Ltd., Dhanaura, Distt. Moradabad.
13. Venus Sugar Ltd., Mazhawali (Bhartra), Teh. Sambal. Distt. Moradabad.
14. Dhampur Sugar Mills Ltd., Asmoli, Teh. Sambhal, Distt. Moradabad.
15. Dewan Sugars Ltd., Agwanpur, Distt. Moradabad.
16. Rudra Bilas Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Bilaspur, Distt. Rampur.
17. The Kesar Enterprises Ltd., Baheri, Distt. Bareilly.
18. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Semi-Khera, Teh. & Distt. Bareilly.
19. J.K. Industries Ltd., Mirganj, Distt. Bareilly.

20. Oswal Overseas Ltd., Nawabganj, Distt. Bareilly
21. Rosa Sugar Works Ltd., (Prop. Oudh Sugar Mills Ltd.) Rosa, Distt. Shahjahanpur.
22. Kisan Sahakari Chini Mills, Tilhar, District Shahjahanpur.
23. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Powayan, Distt. Shahjahanpur.
24. L.H. Sugar Factories Ltd., Pilibhit, Distt. Pilibhit.
25. The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., Majhola, Distt. Pilibhit.
26. Bisalpur Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Bisalpur, Distt. Pilibhit.
27. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Teh. Pooranpur, Distt. Pilibhit.
28. DSM Sugar Khipur, Unit DSM Agro Products Ltd., Kashipur, Distt. Nainital.
29. The Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd., Bazpur Distt. Nainital.
30. Kichha Sugar Co. Ltd., Kichha, Distt. Nainital.
31. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Rajapur- Pooranpur, Nadehi, P.O. Jaspur, Distt. Nainital.
32. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Teh. Sitarganj, Distt. Nainital.
33. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Gadarpur, Distt. Nainital.
34. Shervani Sugar Syndicate Ltd., Neoli Sugar Factory, P.O. Neoli, Distt. Etah.
35. Bajaj Hindustan Ltd., Golagokarannath, Distt. Kheri.
36. The Gobind Sugar Mills Ltd., P.O. Aira Estate, Distt. Kheri.
37. The Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd., Belrayan, Distt. Kheri.
38. Bajaj Hindustan Ltd., Paliakalan, Distt. Kheri.
39. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sampumanagar, Teh. Nigashan, Distt. Lakhimpur Kheri.
40. Ghaghara Sugar Ltd., Ajbapur, Block Pasgaon, Distt. Lakhimpur Kheri.
41. Kitply Industries Ltd., Rupapur, Distt. Hardoi.
42. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Kaimganj, Distt. Farukhabad.
43. Chhata Sugar Co. Ltd., P.O. Chhata, Distt. Mathura.
44. Ghatampur Sugar Co. Ltd., Teh. Ghatampur, Distt. Kanpur.
45. The U.P.State Sugar Corpn. Ltd., Unit Rampur, Distt. Rampur.
46. U.P.State Sugar Corpn Ltd., Bareilly, Distt. Bareilly.
47. U.P. State Sugar Corpn Ltd., Hardoi, Distt. Hardoi.

UTTAR PRADESH (EAST)

1. The Oudh Sugar Mills Ltd., Hargaon, Distt. Sitapur.
2. The Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd., Biswan, Distt. Sitapur.
3. Kisan Sanakari Chini Mills Ltd., Mahmoodabad, Distt. Sitapur.
4. Dalmia Cement (Bharat) Ltd., (Unit Ramgarh Chini Mills), Ramgarh, Teh. Misrikh, Distt. Sitapur.
5. Kamlapur Sugar & Industries Ltd., Kamlapur, Distt. Sitapur.
6. The United Provinces Sugar Co. Ltd., Seorahi, Distt. Padrauna.
7. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Baitalpur, Distt. Deoria.
8. Cawnpore Sugar Works Ltd., P.O. Gauribazar, Distt. Deoria.
9. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Deoria, Distt. Deoria.
10. The Kanoria Sugar & General Mfg. Co. Ltd., Captainganj, Distt. Padrauna.
11. The UP State Sugar Corporation Ltd., P.O. Rajabazar, Unit Khadda, Distt. Padrauna.
12. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Lakshmiganj, Distt. Padrauna.
13. Triveni Engg. & Industries Ltd., Unit. Ramkola, Distt. Padrauna.
14. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Ramkola, Distt. Padrauna.
15. Cawnpore Sugar Works Ltd., Padrauna, Distt. Padrauna.
16. Cawnpore Sugar Works Ltd., Kathkuiyan, Distt. Deoria.
17. The Pratappur Sugar & Ind. Ltd., Pratappur, Distt. Deoria.
18. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bhatni, Distt. Deoria.
19. Saraya Sugar Mills Pvt. Ltd., Sardarnagar, Distt. Gorakhpur.

20. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Pipraich, Distt. Gorakhpur.
21. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Siswabazar, Distt. Maharajganj.
22. Swadeshi Mining & Manufacturing Co. Ltd., Anandnagar, Distt. Maharajganj.
23. J.H.V. Sugar Corporation Ltd., Gadaura, Teh. Nichlaul, Distt. Maharajganj.
24. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. & Distt. Basti.
25. Govindnagar Sugar Ltd., P.O. Walterganj, Distt. Basti.
26. Khalilabad Sugar Mills Pvt. Ltd., Khalilabad, Distt. Basti.
27. The Balrampur Chini Mills Ltd., Babhnan, Distt. Gonda.
28. Balrampur Chini Mills Ltd., Balrampur, Distt. Gonda.
29. Tulsipur Sugar Co. (a unit of Balrampur Chini Mills Ltd.,) Tulsipur, Distt. Gonda.
30. Indo-Gulf Industries Ltd., Maizapur, Distt. Gonda.
31. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Jarwal Road, Distt. Bahraich.
32. Sravasthi Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Nanpara, Distt. Bahraich.
33. Chilwaria Sugar & Chemicals Ltd., Chilwaria, Distt. Bahraich.
34. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Burhwal Distt. Barabanki.
35. Dhampur Sugar Mills Ltd., Rouzagaon, Teh. Ram Sneh, Ghat, Distt. Barabanki.
36. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Shahganj, Distt. Jaunpur.
37. Kamalapat Motilal Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Motinagar, Distt. Faizabad.
38. Kashi Sahakari Chini Mills Ltd., Auraj, Distt. Varanasi.
39. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Rasra, Distt. Ballia.
40. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sathiaon, Distt. Azamgarh.
41. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Ghosi, Distt. Mau.
42. Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., Daryapur, Distt. Rai Bareilly.
43. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sultanpur, Avadh.
44. Haidergarh Chini Mills, Haidergarh, Distt. Barabanki.
45. U.P. State Sugar Coopn. Ltd., Chittauni, Distt. Padrauna.
46. U.P. Coop. Sugar Factories Federation Ltd., Dhuriapar, Block-Urwa, The Golabazar, Distt. Gorakhpur.
47. U.P. State Sugar Coopn. Ltd., Ghughli, Distt. Maharajganj.
48. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Munderwa, Distt. Basti.
49. U.P. State Sugar Corpn. Ltd.,
50. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Nawabganj, Distt. Gonda.
51. The U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Unit – Barabanki, Distt. Barabanki.
52. Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., P.O. Nandganj, Distt., Ghazipur.

UTTAR PRADESH (WEST)

1. The Modi Industries Ltd., Modinagar, Distt. Ghaziabad.
2. The Simbhaoli Sugar Mills Pvt. Ltd., Simbhaoli, Distt. Ghaziabad.
3. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Moihuddinpur, Distt. Meerut.
4. Daurala Sugar Works, Daurala, Distt. Meerut.
5. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Sakhoti-Tanda, Distt. Meerut.
6. SIEL Sugar Limited, Mawana, Distt. Meerut.
7. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., Bagpat, Distt. Meerut.
8. The Ramala Sahakari Chini Mills Ltd., Ramala, Distt. Meerut.
9. SBEC Sugar Ltd., Malakpur, Teh. Baraut, Distt. Bagpat.
10. Triveni Engineering & Industries Ltd., Sugar Unit, Khatauli, Distt. Muzaffarnagar.
11. Mansurpur Sugar Mills Ltd., Mansurpur, Distt. Muzaffarnagar.
12. U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Rohana Kalan, Distt. Muzaffarnagar.
13. The Upper Doab Sugar Mills Ltd., Shamli, Distt. Muzaffarnagar.
14. The Ganga Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Teh. Jansath,

- Distt. Muzaffarnagar.
15. Monnet Industries Ltd., Un, Teh. Kairana, District Muzaffarnagar.
 16. SIEL Sugar Ltd., Titawi, Distt. Muzaffarnagar.
 17. Tikaula Sugar Mills Ltd., Tikaula Teh. Jansath, Distt. Muzaffarnagar.
 18. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Panninagar, Distt. Bulandshahr.
 19. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Anoopshahr, Distt. Bulandshahr.
 20. Willard India Ltd., Sugar Division (Agauta Sugar & Chemicals), Agauta, Distt., Bulandshahr.
 21. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Doiwala, Distt. Dehradun.
 22. Triveni Engg. & Industries Ltd., Deoband, Distt. Saharanpur.
 23. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Saharanpur, Distt. Saharanpur.
 24. Kisan Coop. Sugar Factory Ltd., Sarsawa, Distt. Saharanpur.
 25. Shakumbhari Sugar & Allied Industries Ltd. at Todarpur (Raghar), Distt. Saharanpur.
 26. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd. Nanauta, Distt. Saharanpur.
 27. Daya Sugar, Nayabaas, Tehsil Gagalheri, Distt. Saharanpur.
 28. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., Lhaksar, Distt. Haridwar.
 29. The Mahalakshmi Sugar Mills Co. Ltd., Iqbalpur, Distt. Haridwar.
 30. Uttam Sugar Mills Ltd., Village Libberhadi, Distt. Haridwar.
 31. The U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Maliana, Distt. Meerut.

[F. No. 2(2)/2004-SP]

P. UMA SHANKAR, Jt. Secy.